

**Government of India**  
**Ministry of Petroleum and Natural Gas**  
**Economic & Statistics Division**  
 \*\*\*\*\*

New Delhi

Dated the Monday, September 15, 2025

**Monthly Production Report**  
**August 2025**

**1. Production of Crude Oil**

**Crude oil production<sup>1</sup>** during August 2025 was 2374.5 TMT, which is 10.75% lower than target for the month and 1.22% lower than the production of August 2024. Cumulative crude oil production during April- August, 2025 was 11888.95 TMT, which is 8.96% lower than target for the period and 1.67% lower than production during corresponding period of last year respectively. Unit-wise and State-wise crude oil production is given at **Annexure-I**. Unit-wise crude oil production for the month of August 2025 and cumulatively for April - August 2025-26 vis-a-vis same period of last year has been shown in Table-1 and month - wise in Figure-1.

**Table-1: Crude Oil Production (in TMT)**


| Oil Company              | Target<br>2025-26<br>(Apr - Mar) * | August (Month) |                |                |                                        | April-August (Cumulative) |                 |                 |                                        |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|
|                          |                                    | 2025-26        |                | 2024-25        | %<br>variation<br>over<br>last<br>year | 2025-26                   |                 | 2024-25         | %<br>variation<br>over<br>last<br>year |
|                          |                                    | Target*        | Prod.*         | Prod.          |                                        | Target*                   | Prod.*          | Prod.           |                                        |
| ONGC (Nomination Block)  | 19828.42                           | 1679.09        | 1511.27        | 1569.71        | -3.72                                  | 8211.00                   | 7550.44         | 7857.23         | -3.90                                  |
| OIL (Nomination Block)   | 3776.00                            | 316.96         | 287.30         | 298.43         | -3.73                                  | 1534.63                   | 1425.61         | 1462.08         | -2.49                                  |
| Pvt/JVs (PSC/RSC Regime) | 7849.28                            | 664.40         | 575.93         | 535.59         | 7.53                                   | 3313.02                   | 2912.90         | 2771.60         | 5.10                                   |
| <b>Total</b>             | <b>31453.70</b>                    | <b>2660.44</b> | <b>2374.50</b> | <b>2403.73</b> | <b>-1.22</b>                           | <b>13058.65</b>           | <b>11888.95</b> | <b>12090.92</b> | <b>-1.67</b>                           |

Note: Totals may not tally due to rounding off.

\*: Provisional

1.Inclusive Condensate

**Figure-1: Monthly Crude Oil Production**



Unit-wise production details with reasons for shortfall are as under:

**1.1** Crude oil production by **ONGC** (Oil and Natural Gas Corporation) in nomination block during August 2025 was 1511.27 TMT, which is 9.99% lower than target of the month and 3.72% lower when compared with production of August 2024. Cumulative crude oil production by ONGC during April-August, 2025 was 7550.44 TMT, which is 8.04% lower than target for the period and 3.90% lower than production during corresponding period of last year respectively. Reasons for shortfall in production are as under:

- Cluster-7/8: Less oil production due to less gas handling capacity at FPSO.
- B&S Asset: Less Oil production due to tripping and failure of ESPs in NBP/ Ratna field & shortfall due to less base production than plan in other fields of asset.
- Increase in water cut in North Kadi, Pressure & liquid decline in Jotana & Linch and less than envisaged production in Linch, Sobhasan, N Kadi & Balol fields in Mehsana Asset.
- Decline in Kalol, Ahmedabad and Nawagam field in Ahmedabad Asset.
- Liquid production decline in West Matar and Ankleshwar fields in Ankleshwar Asset.
- Increase in water cut and well closure in Ankav, Padra & Akholjuni fields in Cambay Asset.
- Decline observed from base wells, primarily due to depletion in the Hatipoti field and increasing water cut in the Lakwa, Lakhmani & RDS fields in Assam Asset .
- Decline in Gopavaram, Malleswaram and Kesanapalli-West fields in Rajahmundry Asset due to decrease in THP and increase in water cut.
- Restrictions on drilling/side tracking of wells in delta region & non-availability of ECs for development inputs in Cauvery Asset.

**1.2** Crude oil production by **OIL** (Oil India Ltd) in the nomination block during August 2025 was 287.3 TMT, which is 9.36% lower than the target of the month but 3.73% lower when compared with production of August, 2024. Cumulative crude oil production by OIL during April-August, 2025 was 1425.61 TMT, which is 7.10% lower than target for the period and 2.49% lower when compared production during corresponding period of last year. Major reason for shortfall in production is as under.

- Less than planned contribution from drilling wells /old wells
- Less than planned contribution from workover wells.
- Low off take of NG by major consumer impacted crude oil production High-producing wells are taken to workover.
- Operation-related loss.
- Fluctuations in production.

**1.3** Crude oil production by **Pvt / JVs** companies in the PSC / RSC regime during August 2025 was 575.93 TMT, which is 13.31% lower than the target of the reporting month and 7.53% higher than the month production of August, 2024. Cumulative crude oil production by Pvt / JVs companies during April-August 2025 was 2912.9 TMT, which is 12.08% lower and 5.10% higher than target for the period and production during corresponding period of last year respectively :

- RJ-ON-90/1: 1. MANGALA: Multiple Well failures and Lower polymer injection. 2. BHAGYAM: Unplanned well downtime and Lower Polymer injection. 3. AISHWARIYA: Unplanned well and surface downtime. Lower Polymer injection. 4. GUDA: High water-cut observed in well Guda#2 and Downtime in well Guda#07 due to wax congealing. 5. SARASWATI: Delay in drilling and hook-up of well Saraswati-9 and Underperformance of well

Saraswati-10.6.TUKARAM: Tukaram-4 shut due to facility constraint in activation. (VEDANTA)

- KG-DWN-98/2: Oil field wells are producing less than estimated profile. (ONGC)
- CB-ONN-2000/1: Well, PK2#A1 shut in since 18th Aug 2025 due to sucker rods pump failure. Also, shortfall in production hours in SRP operated wells PK2#A1, PK2#A2 due to power failure by UGVCL. (GSPC)
- MB/OSDSF/B80/2016: Process shutdown due to FSO mooring chain damage. (HOEC)
- AMGURI: Less condensate production due to low offtake of Gas. (OILMAX)

## 2. Production of Natural Gas

**Natural gas production** during August 2025 was 2965.73 MMSCM, which is 3.55% lower than the monthly target and 2.71% lower than the production of August 2024. Cumulative natural gas production during April-August 2025 was 14709.35 MMSCM, which is 2.60% lower when compared with target for the period and 3.08% lower than production during corresponding period of last year. Unit-wise and state-wise natural gas production is given at **Annexure-II**. Unit-wise natural gas production for the month of August 2025 and cumulatively for April - August 2025-26 vis-a-vis same period of last year has been shown in Table-2 and month-wise in Figure-2


**Table-2: Natural Gas Production (in MMSCM)**

| Oil Company              | Target                   | August(Month)  |                |                |                                        | April-August (Cumulative) |                 |                 |                                        |
|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|
|                          | 2025-26<br>(Apr - Mar) * | 2025-26        |                | 2024-25        | %<br>variation<br>over<br>last<br>year | 2025-26                   |                 | 2024-25         | %<br>variation<br>over<br>last<br>year |
|                          |                          | Target*        | Prod.*         | Prod.          |                                        | Target*                   | Prod.*          | Prod.           |                                        |
| ONGC (Nomination Block)  | 19903.60                 | 1654.95        | 1569.07        | 1572.02        | -0.19                                  | 8102.17                   | 7697.05         | 7840.16         | -1.83                                  |
| OIL (Nomination Block)   | 3659.14                  | 316.26         | 265.88         | 270.31         | -1.64                                  | 1543.01                   | 1332.67         | 1319.71         | 0.98                                   |
| Pvt/JVs (PSC/RSC Regime) | 12914.63                 | 1103.56        | 1130.78        | 1205.91        | -6.23                                  | 5456.49                   | 5679.63         | 6017.67         | -5.62                                  |
| <b>Total</b>             | <b>36477.37</b>          | <b>3074.77</b> | <b>2965.73</b> | <b>3048.24</b> | <b>-2.71</b>                           | <b>15101.67</b>           | <b>14709.35</b> | <b>15177.53</b> | <b>-3.08</b>                           |

Note: Totals may not tally due to rounding off.

\*: Provisional

**Figure-1: Monthly Natural Gas Production**



**2.1** Natural gas production by **ONGC** (Oil and Natural Gas Corporation) in the nomination blocks during August 2025 was 1569.07 MMSCM, which is 5.19% lower target for the month and 0.19% lower than the production of August 2024. Cumulative natural gas production by ONGC during April-August, 2025 was 7697.05 MMSCM, which is 5.00% lower and 1.83% lower than target for the period and production during corresponding period of last year respectively. Reasons for shortfall in production are as under:

- Bassein, Panna and Vasai East: Less than planned gas production due to under performance of wells.
- Consumer offtake issues, consumer shutdown and restrictions in drilling/side tracking of wells and non -availability of EC for development inputs in Cauvery Asset.
- Decrease in associated gas production due to substantial decrease in oil production from the fields from the fields in Assam Asset.
- Less gas offtake due to consumer shutdown in Tripura Asset. Higher than anticipated decline observed in Agartala Dome and Sundulbari fields.
- Non-commencement of gas production at Silchar due to delay in line laying by IGGL.
- Less production due to gas offtake issues and closure of high GOR wells to reduce flaring in Jorhat.
- Decline due to decrease in THP and increase in water cut from Pasarlapudi, Tatipaka and other small fields (Kesavadasupalem, Gopavaram, Lakshmenaswaram etc) in Rajahmundry Asset.

**2.2** Natural gas production by **OIL** (Oil India Ltd) in the nomination block during August 2025 was 265.88 MMSCM which is 15.93% lower than the target for the month of current year but 1.64% lower than production of corresponding month of last year. Cumulative natural gas production by OIL during April-August 2025 was 1332.67 MMSCM, which is 13.63% lower than target for the period but 0.98% higher than production during corresponding period of last year. Reasons for shortfall in production are as under:

- Less than planned contribution from drilling wells /old wells
- Low offtake by major customers in MP Operational Related

**2.3** Natural gas production by Pvt/ JVs companies in the PSC / RSC / CBM regime during August 2025 was 1130.78 MMSCM, which is 2.47% higher than the target for the month but 6.23% lower when compared the production of August 2024. Cumulative natural gas production by Pvt/ JVs during April-August, 2025 was 5679.63 MMSCM, which is 4.09% higher than target for the period but 5.62% lower than production during corresponding period of last year. Reasons for shortfall in production are as under:

- KG-DWN-98/2: Delay in commissioning of CPP and production commencement from R and A1 NAG Fields. (ONGC)
- AAP-ON-94/1: Less offtake by customer. (HOEC)
- RJ-ON-90/1: Low Associated Natural Gas production due to shortfall in Oil Production. (VEDANTA)
- CY-ONN-2002/2: No gas offtake from TNG#1 since 04.08.2025. (ONGC)
- RANIGANJ EAST: Shortfall due to delay in scheduled drilling of new wells and well bore issues in existing wells. (ESSAR)

### 3. Crude Oil Processed (Crude Throughput)

**Crude Oil Processed** during August 2025 was 22323.09 TMT, which is 1.21% higher than target for the month but 3.18% higher than the August 2024. Cumulative crude processed during April-August, 2025 was 112955.57 TMT, which is 1.08% higher than target for the period and 1.70% higher than production during corresponding period of last year respectively. Refinery-wise details of the crude throughput and capacity utilization during the month of August 2025 vis-a-vis August 2024 are given at **Annexure-III** and **Annexure-IV**. Company-wise crude throughput for the month of August 2025 and cumulatively for the period April -

August 2025 vis-a-vis same period of last year has been shown in Table-3 and month wise in Figure-3.


**Table3: Crude Oil Processed (Crude Throughput) (in TMT)**

| Oil Company    | Target                   | August(Month)   |                 |                 |                            | April-August (Cumulative) |                  |                  |                            |
|----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
|                | 2025-26<br>(Apr - Mar) * | 2025-26         |                 | 2024-25         | % variation over last year | 2025-26                   |                  | 2024-25          | % variation over last year |
|                |                          | Target*         | Prod.*          | Prod.           |                            | Target*                   | Prod.*           | Prod.            |                            |
| <b>CPSE</b>    | <b>170665.81</b>         | <b>13839.00</b> | <b>13991.17</b> | <b>13382.84</b> | <b>4.55</b>                | <b>70434.71</b>           | <b>71775.05</b>  | <b>69695.14</b>  | <b>2.98</b>                |
| IOCL           | 74099.48                 | 6141.24         | 5780.90         | 5590.87         | 3.40                       | 30840.80                  | 30648.69         | 29615.26         | 3.49                       |
| BPCL           | 40400.08                 | 3209.00         | 3189.98         | 3398.96         | -6.15                      | 16902.05                  | 17249.51         | 17176.02         | 0.43                       |
| HPCL           | 25000.38                 | 2113.70         | 2221.22         | 1993.86         | 11.40                      | 10352.20                  | 11120.19         | 9932.81          | 11.95                      |
| CPCL           | 11000.00                 | 652.00          | 1060.36         | 680.63          | 55.79                      | 4556.00                   | 4997.95          | 4390.61          | 13.83                      |
| NRL            | 3100.78                  | 242.36          | 248.01          | 216.24          | 14.69                      | 1207.86                   | 1306.48          | 1198.03          | 9.05                       |
| MRPL           | 17000.00                 | 1475.00         | 1484.09         | 1496.51         | -0.83                      | 6550.00                   | 6421.92          | 7354.40          | -12.68                     |
| ONGC           | 65.10                    | 5.70            | 6.61            | 5.79            | 14.23                      | 25.80                     | 30.32            | 28.01            | 8.23                       |
| <b>Pvt/JVs</b> | <b>97394.11</b>          | <b>8216.52</b>  | <b>8331.92</b>  | <b>8252.25</b>  | <b>0.97</b>                | <b>41316.49</b>           | <b>41180.53</b>  | <b>41370.83</b>  | <b>-0.46</b>               |
| HMEL           | 13044.81                 | 1098.98         | 1056.99         | 1098.98         | -3.82                      | 5480.34                   | 5205.81          | 5480.34          | -5.01                      |
| RIL            | 66181.58                 | 5400.39         | 5868.53         | 5400.39         | 8.67                       | 27349.37                  | 27741.42         | 27349.35         | 1.43                       |
| NEL            | 18167.72                 | 1717.15         | 1406.40         | 1752.88         | -19.77                     | 8486.78                   | 8233.30          | 8541.14          | -3.60                      |
| <b>Total</b>   | <b>268059.93</b>         | <b>22055.52</b> | <b>22323.09</b> | <b>21635.09</b> | <b>3.18</b>                | <b>111751.20</b>          | <b>112955.57</b> | <b>111065.97</b> | <b>1.70</b>                |

Note: Totals may not tally due to rounding off.

\*: Provisional

**Figure3: Crude Oil Processed (CrudeThroughput)**



**3.1 CPSE Refineries' crude oil processed** during August 2025 was 13991.17 TMT, which is 1.10% higher than target for the month but 4.55% higher than the production of August 2024. Cumulative crude throughput during April-August, 2025 was 71775.05 TMT which is 1.90% higher than target for the period and 2.98% higher than production during corresponding period of last year respectively.

**3.2 Private & JVs Refineries' crude oil processed** during August 2025 was 8331.92 TMT, which is 1.40% higher than the target for the month and 0.97% higher than the production of August, 2024. Cumulative crude throughput during April-August, 2025 was 41180.53 TMT, which is 0.33% lower and 0.46% lower than target for the period and production during corresponding period of last year respectively.

#### 4. Production of Petroleum Products

**Production of Petroleum Products** during August 2025 was 23366.78 TMT, which is 1.49% higher than the target for the month but 3.00% higher than the production of August 2024. Cumulative production during April - August, 2025 was 117406.11 TMT, which is 0.26% higher and 0.32% higher than target for the period and production during corresponding period of last year respectively. Unit-wise production of petroleum products is given at **Annexure-V**. Company-wise production for the month of August 2025 and cumulatively for April-August 2025 vis-a-vis same period of last year has been shown in Table-4 and month-wise in Figure-4.


**Table4: Production of Petroleum Products (TMT)**

| Oil Company           | Target<br>2025-26<br>(Apr - Mar) * | August(Month)   |                 |                 |                                        | April-August (Cumulative) |                  |                  |                                        |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|
|                       |                                    | 2025-26         |                 | 2024-25         | %<br>variation<br>over<br>last<br>year | 2025-26                   |                  | 2024-25          | %<br>variation<br>over<br>last<br>year |
|                       |                                    | Target*         | Prod.*          | Prod.           |                                        | Target*                   | Prod.*           | Prod.            |                                        |
| CPSE                  | 161453.11                          | 13063.39        | 13228.53        | 12660.64        | 4.49                                   | 66768.12                  | 67872.64         | 66212.21         | 2.51                                   |
| IOCL                  | 71162.14                           | 5883.82         | 5447.05         | 5258.63         | 3.58                                   | 29685.20                  | 29354.48         | 28713.98         | 2.23                                   |
| BPCL                  | 38236.20                           | 3030.90         | 3029.84         | 3261.90         | -7.11                                  | 15987.30                  | 16218.94         | 16128.20         | 0.56                                   |
| HPCL                  | 22929.98                           | 1940.36         | 2117.67         | 1918.69         | 10.37                                  | 9543.16                   | 10279.49         | 9295.04          | 10.59                                  |
| CPCL                  | 10442.40                           | 608.90          | 1013.53         | 637.75          | 58.92                                  | 4323.30                   | 4883.44          | 4212.17          | 15.94                                  |
| NRL                   | 3074.98                            | 240.32          | 251.64          | 222.18          | 13.26                                  | 1197.77                   | 1298.22          | 1192.74          | 8.84                                   |
| MRPL                  | 15545.30                           | 1353.60         | 1362.32         | 1355.99         | 0.47                                   | 6006.70                   | 5808.34          | 6643.57          | -12.57                                 |
| ONGC                  | 62.10                              | 5.50            | 6.48            | 5.51            | 17.67                                  | 24.70                     | 29.74            | 26.51            | 12.20                                  |
| <b>Pvt/JVs</b>        | <b>116856.77</b>                   | <b>9758.05</b>  | <b>9827.31</b>  | <b>9747.65</b>  | <b>0.82</b>                            | <b>49382.54</b>           | <b>48112.51</b>  | <b>49385.62</b>  | <b>-2.58</b>                           |
| HMEL                  | 12741.96                           | 976.63          | 1041.58         | 976.63          | 6.65                                   | 5298.96                   | 4869.32          | 5298.97          | -8.11                                  |
| RIL                   | 86795.62                           | 7154.46         | 7360.36         | 7154.46         | 2.88                                   | 35970.14                  | 35195.65         | 35970.14         | -2.15                                  |
| NEL                   | 17319.19                           | 1626.96         | 1425.37         | 1616.56         | -11.83                                 | 8113.44                   | 8047.55          | 8116.52          | -0.85                                  |
| <b>Total Refinery</b> | <b>278309.87</b>                   | <b>22821.44</b> | <b>23055.84</b> | <b>22408.29</b> | <b>2.89</b>                            | <b>116150.66</b>          | <b>115985.15</b> | <b>115597.83</b> | <b>0.34</b>                            |
| Fractionators         | 2291.61                            | 202.38          | 310.93          | 278.75          | 11.55                                  | 949.02                    | 1420.96          | 1431.13          | -0.71                                  |
| <b>Total</b>          | <b>280601.48</b>                   | <b>23023.82</b> | <b>23366.78</b> | <b>22687.04</b> | <b>3.00</b>                            | <b>117099.68</b>          | <b>117406.11</b> | <b>117028.96</b> | <b>0.32</b>                            |

Note: Totals may not tally due to rounding off.

\*: Provisional

**Figure4: Monthly Refinery Production of Petroleum Products**



**4.1** Production of petroleum Products by **Oil's Refineries** during August 2025 was 23055.84 TMT, which is 1.03% higher than target for the month and 2.89% higher than the production of August 2024. Cumulative production during April-August, 2025 was 115985.15 TMT, which is 0.14% lower and 0.34% higher than target for the period and production during corresponding period of last year respectively.

**4.2** Production of petroleum Products by **Fractionators** during August 2025 was 310.93 TMT, which is 53.64% higher than the target for the month and 11.54% higher than production of August 2024. Cumulative production during April-August, 2025 was 1420.96 TMT, which is 49.73% higher and 0.71% lower than target for the period and production during corresponding period of last year respectively.

\*\*\*\*\*

**Note: Report (MPR) is generated through API from Pariyojana Portal as on 15/09/2025**

| Annexure-I (Para-1)                                                                                                                               |                                    |                       |                                  |                                    |                                       |                                         |                                                            |                               |                             |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Crude Oil Production during the month of August, 2025 and cumulatively for the period April-August, 2025-2026 vis-à-vis April-August, 2024 - 2025 |                                    |                       |                                  |                                    |                                       |                                         |                                                            |                               |                             |                                                                  |
| (Figures in Thousand Metric Tons)                                                                                                                 |                                    |                       |                                  |                                    |                                       |                                         |                                                            |                               |                             |                                                                  |
| Name of Undertaking/Unit/State                                                                                                                    | Target production during the month | Production during the |                                  |                                    | Cumulative Production                 |                                         |                                                            | % variation over last year    |                             | % variation during the month under review over Target production |
|                                                                                                                                                   |                                    | Month under review *  | Corresponding month of last year | Preceding month of current year ** | Target production during current year | Actual production during current year * | Actual production during corresponding period of last year | During the month under review | Up to the end of the period |                                                                  |
| (1)                                                                                                                                               | (2)                                | (3)                   | (4)                              | (5)                                | (6)                                   | (7)                                     | (8)                                                        | (9)                           | (10)                        | (11)                                                             |
| <b>1. ONGC</b>                                                                                                                                    | <b>1679.09</b>                     | <b>1511.27</b>        | <b>1569.71</b>                   | <b>1527.61</b>                     | <b>8211.00</b>                        | <b>7550.44</b>                          | <b>7857.23</b>                                             | <b>-3.72</b>                  | <b>-3.90</b>                | <b>-9.99</b>                                                     |
| <b>ONSHORE</b>                                                                                                                                    | <b>550.23</b>                      | <b>499.96</b>         | <b>506.90</b>                    | <b>502.46</b>                      | <b>2673.46</b>                        | <b>2495.07</b>                          | <b>2526.65</b>                                             | <b>-1.37</b>                  | <b>-1.25</b>                | <b>-9.14</b>                                                     |
| Andhra Pradesh                                                                                                                                    | 20.95                              | 17.91                 | 19.30                            | 18.69                              | 103.52                                | 96.44                                   | 92.78                                                      | -7.20                         | 3.94                        | -14.51                                                           |
| Assam                                                                                                                                             | 98.37                              | 88.71                 | 90.47                            | 87.54                              | 484.24                                | 436.38                                  | 439.84                                                     | -1.95                         | -0.79                       | -9.82                                                            |
| Gujarat                                                                                                                                           | 410.71                             | 377.75                | 379.24                           | 380.13                             | 1988.77                               | 1881.64                                 | 1904.48                                                    | -0.39                         | -1.20                       | -8.03                                                            |
| Tamil Nadu                                                                                                                                        | 20.00                              | 15.48                 | 17.79                            | 15.94                              | 96.00                                 | 80.00                                   | 88.97                                                      | -12.98                        | -10.08                      | -22.60                                                           |
| Tripura                                                                                                                                           | 0.20                               | 0.11                  | 0.11                             | 0.16                               | 0.92                                  | 0.62                                    | 0.57                                                       | 0.00                          | 8.77                        | -45.00                                                           |
| <b>OFFSHORE</b>                                                                                                                                   | <b>1128.86</b>                     | <b>1011.31</b>        | <b>1062.81</b>                   | <b>1025.15</b>                     | <b>5537.54</b>                        | <b>5055.36</b>                          | <b>5330.58</b>                                             | <b>-4.85</b>                  | <b>-5.16</b>                | <b>-10.41</b>                                                    |
| Eastern Offshore                                                                                                                                  | 1.77                               | 0.64                  | 0.90                             | 0.73                               | 4.85                                  | 3.78                                    | 4.26                                                       | -28.89                        | -11.27                      | -63.84                                                           |
| Western Offshore                                                                                                                                  | 1127.09                            | 1010.67               | 1061.91                          | 1024.42                            | 5532.69                               | 5051.58                                 | 5326.33                                                    | -4.83                         | -5.16                       | -10.33                                                           |
| <b>2. OIL</b>                                                                                                                                     | <b>316.96</b>                      | <b>287.30</b>         | <b>298.43</b>                    | <b>289.47</b>                      | <b>1534.63</b>                        | <b>1425.61</b>                          | <b>1462.08</b>                                             | <b>-3.73</b>                  | <b>-2.49</b>                | <b>-9.36</b>                                                     |
| <b>ONSHORE</b>                                                                                                                                    | <b>316.96</b>                      | <b>287.30</b>         | <b>298.43</b>                    | <b>289.47</b>                      | <b>1534.63</b>                        | <b>1425.61</b>                          | <b>1462.08</b>                                             | <b>-3.73</b>                  | <b>-2.49</b>                | <b>-9.36</b>                                                     |
| Arunachal Pradesh                                                                                                                                 | 2.40                               | 2.64                  | 2.72                             | 2.84                               | 12.09                                 | 13.72                                   | 14.02                                                      | -2.94                         | -2.14                       | 10.00                                                            |
| Assam                                                                                                                                             | 310.63                             | 281.15                | 293.19                           | 283.51                             | 1505.41                               | 1395.93                                 | 1435.62                                                    | -4.11                         | -2.76                       | -9.49                                                            |
| Rajasthan                                                                                                                                         | 3.93                               | 3.51                  | 2.52                             | 3.12                               | 17.13                                 | 15.95                                   | 12.44                                                      | 39.29                         | 28.22                       | -10.69                                                           |
| <b>3. Private/JVC</b>                                                                                                                             | <b>664.40</b>                      | <b>575.93</b>         | <b>535.59</b>                    | <b>581.99</b>                      | <b>3313.02</b>                        | <b>2912.90</b>                          | <b>2771.60</b>                                             | <b>7.53</b>                   | <b>5.10</b>                 | <b>-13.32</b>                                                    |
| <b>ONSHORE</b>                                                                                                                                    | <b>408.37</b>                      | <b>327.07</b>         | <b>345.72</b>                    | <b>327.95</b>                      | <b>2015.30</b>                        | <b>1634.71</b>                          | <b>1811.77</b>                                             | <b>-5.40</b>                  | <b>-9.77</b>                | <b>-19.91</b>                                                    |
| Andhra Pradesh                                                                                                                                    | 4.71                               | 4.49                  | 6.16                             | 4.03                               | 24.38                                 | 19.95                                   | 27.02                                                      | -27.11                        | -26.17                      | -4.67                                                            |
| Arunachal Pradesh                                                                                                                                 | 3.08                               | 2.93                  | 1.49                             | 2.72                               | 12.07                                 | 11.40                                   | 8.01                                                       | 95.97                         | 42.32                       | -4.87                                                            |
| Assam                                                                                                                                             | 3.69                               | 2.53                  | 1.82                             | 2.13                               | 17.55                                 | 12.23                                   | 9.92                                                       | 39.01                         | 23.29                       | -31.44                                                           |
| Gujarat                                                                                                                                           | 65.73                              | 62.85                 | 43.97                            | 60.64                              | 318.67                                | 304.68                                  | 216.79                                                     | 42.94                         | 40.54                       | -4.38                                                            |
| Rajasthan                                                                                                                                         | 326.27                             | 249.09                | 286.86                           | 253.24                             | 1618.16                               | 1260.73                                 | 1522.96                                                    | -13.17                        | -17.22                      | -23.66                                                           |
| Tamil Nadu                                                                                                                                        | 4.89                               | 5.19                  | 5.41                             | 5.19                               | 24.47                                 | 25.71                                   | 27.08                                                      | -4.07                         | -5.06                       | 6.13                                                             |
| <b>OFFSHORE</b>                                                                                                                                   | <b>256.03</b>                      | <b>248.87</b>         | <b>189.87</b>                    | <b>254.04</b>                      | <b>1297.72</b>                        | <b>1278.19</b>                          | <b>959.83</b>                                              | <b>31.07</b>                  | <b>33.17</b>                | <b>-2.80</b>                                                     |
| Eastern Offshore                                                                                                                                  | 234.88                             | 227.81                | 175.97                           | 232.33                             | 1183.85                               | 1168.85                                 | 879.17                                                     | 29.46                         | 32.95                       | -3.01                                                            |
| Gujarat Offshore                                                                                                                                  | 18.66                              | 19.68                 | 13.13                            | 21.68                              | 100.22                                | 101.63                                  | 67.65                                                      | 49.89                         | 50.23                       | 5.47                                                             |
| Western Offshore                                                                                                                                  | 2.49                               | 1.38                  | 0.77                             | 0.03                               | 13.65                                 | 7.71                                    | 13.01                                                      | 77.92                         | -40.74                      | -44.58                                                           |
| <b>GRAND TOTAL (1+2+3)</b>                                                                                                                        | <b>2660.44</b>                     | <b>2374.50</b>        | <b>2403.73</b>                   | <b>2399.07</b>                     | <b>13058.65</b>                       | <b>11888.95</b>                         | <b>12090.92</b>                                            | <b>-1.22</b>                  | <b>-1.67</b>                | <b>-10.75</b>                                                    |
| ONSHORE                                                                                                                                           | 1275.55                            | 1114.32               | 1151.05                          | 1119.88                            | 6223.39                               | 5555.39                                 | 5800.50                                                    | -3.19                         | -4.23                       | -12.64                                                           |
| OFFSHORE                                                                                                                                          | 1384.89                            | 1260.17               | 1252.68                          | 1279.19                            | 6835.26                               | 6333.56                                 | 6290.42                                                    | 0.60                          | 0.69                        | -9.01                                                            |

Note: Totals may not tally due to rounding off figures. \*: Provisional. \*\*: Revised

Reasons for shortfall are indicated in the note. ^: CPCL CBR refinery is under shutdown due to limitation in meeting required Product specifications with the existing configuration Source: Oil Companies

| Annexure-II (Para-2)                                                                                                                                |                                    |                       |                                  |                                    |                                         |                                         |                                                            |                               |                             |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Natural Gas Production during the month of August, 2025 and cumulatively for the period April-August, 2025-2026 vis-à-vis April-August, 2024 - 2025 |                                    |                       |                                  |                                    |                                         |                                         |                                                            |                               |                             |                                                                  |
| (Figures in Million Cubic Meters)                                                                                                                   |                                    |                       |                                  |                                    |                                         |                                         |                                                            |                               |                             |                                                                  |
| Name of Undertaking/Unit/State                                                                                                                      | Target production during the month | Production during the |                                  |                                    | Cumulative Production<br>(April-August) |                                         |                                                            | % variation over last year    |                             | % variation during the month under review over Target production |
|                                                                                                                                                     |                                    | Month under review *  | Corresponding month of last year | Preceding month of current year ** | Target production during current year   | Actual production during current year * | Actual production during corresponding period of last year | During the month under review | Up to the end of the period |                                                                  |
| (1)                                                                                                                                                 | (2)                                | (3)                   | (4)                              | (5)                                | (6)                                     | (7)                                     | (8)                                                        | (9)                           | (10)                        | (11)                                                             |
| <b>1. ONGC</b>                                                                                                                                      | <b>1654.95</b>                     | <b>1569.07</b>        | <b>1572.02</b>                   | <b>1560.31</b>                     | <b>8102.17</b>                          | <b>7697.05</b>                          | <b>7840.16</b>                                             | <b>-0.19</b>                  | <b>-1.83</b>                | <b>-5.19</b>                                                     |
| <b>ONSHORE</b>                                                                                                                                      | <b>388.02</b>                      | <b>338.27</b>         | <b>345.60</b>                    | <b>335.55</b>                      | <b>1891.37</b>                          | <b>1691.36</b>                          | <b>1729.73</b>                                             | <b>-2.12</b>                  | <b>-2.22</b>                | <b>-12.82</b>                                                    |
| Andhra Pradesh                                                                                                                                      | 66.26                              | 62.42                 | 63.43                            | 61.49                              | 323.21                                  | 313.07                                  | 309.65                                                     | -1.59                         | 1.10                        | -5.80                                                            |
| Assam                                                                                                                                               | 36.20                              | 30.23                 | 29.09                            | 28.95                              | 178.21                                  | 142.64                                  | 146.45                                                     | 3.92                          | -2.60                       | -16.49                                                           |
| Gujarat                                                                                                                                             | 69.26                              | 70.88                 | 66.40                            | 69.85                              | 342.83                                  | 349.98                                  | 329.56                                                     | 6.75                          | 6.20                        | 2.34                                                             |
| Rajasthan                                                                                                                                           | 1.50                               | 0.00                  | 0.00                             | 0.00                               | 5.50                                    | 0.00                                    | 0.00                                                       | -                             | -                           | -                                                                |
| Tamil Nadu                                                                                                                                          | 84.02                              | 73.17                 | 85.29                            | 80.81                              | 415.08                                  | 385.89                                  | 426.68                                                     | -14.22                        | -9.56                       | -12.91                                                           |
| Tripura                                                                                                                                             | 130.77                             | 101.57                | 101.38                           | 94.45                              | 626.55                                  | 499.78                                  | 517.39                                                     | 0.19                          | -3.40                       | -22.33                                                           |
| <b>OFFSHORE</b>                                                                                                                                     | <b>1266.93</b>                     | <b>1230.80</b>        | <b>1226.41</b>                   | <b>1224.76</b>                     | <b>6210.80</b>                          | <b>6005.69</b>                          | <b>6110.43</b>                                             | <b>0.36</b>                   | <b>-1.71</b>                | <b>-2.85</b>                                                     |
| Eastern Offshore                                                                                                                                    | 19.78                              | 15.66                 | 20.98                            | 15.70                              | 92.48                                   | 82.50                                   | 106.54                                                     | -25.36                        | -22.56                      | -20.83                                                           |
| Western Offshore                                                                                                                                    | 1247.15                            | 1215.14               | 1205.44                          | 1209.06                            | 6118.31                                 | 5923.20                                 | 6003.88                                                    | 0.80                          | -1.34                       | -2.57                                                            |
| <b>2. OIL</b>                                                                                                                                       | <b>316.26</b>                      | <b>265.88</b>         | <b>270.31</b>                    | <b>264.38</b>                      | <b>1543.01</b>                          | <b>1332.67</b>                          | <b>1319.71</b>                                             | <b>-1.64</b>                  | <b>0.98</b>                 | <b>-15.93</b>                                                    |
| <b>ONSHORE</b>                                                                                                                                      | <b>316.26</b>                      | <b>265.88</b>         | <b>270.31</b>                    | <b>264.38</b>                      | <b>1543.01</b>                          | <b>1332.67</b>                          | <b>1319.71</b>                                             | <b>-1.64</b>                  | <b>0.98</b>                 | <b>-15.93</b>                                                    |
| Arunachal Pradesh                                                                                                                                   | 4.71                               | 3.35                  | 3.61                             | 3.95                               | 21.44                                   | 17.90                                   | 15.07                                                      | -7.20                         | 18.78                       | -28.87                                                           |
| Assam                                                                                                                                               | 286.69                             | 241.57                | 253.70                           | 237.53                             | 1398.88                                 | 1208.88                                 | 1246.80                                                    | -4.78                         | -3.04                       | -15.74                                                           |
| Rajasthan                                                                                                                                           | 24.86                              | 20.97                 | 12.99                            | 22.90                              | 122.69                                  | 105.89                                  | 57.85                                                      | 61.43                         | 83.04                       | -15.65                                                           |
| <b>3. Private/JVC</b>                                                                                                                               | <b>1103.56</b>                     | <b>1130.78</b>        | <b>1205.91</b>                   | <b>1137.46</b>                     | <b>5456.49</b>                          | <b>5679.63</b>                          | <b>6017.67</b>                                             | <b>-6.23</b>                  | <b>-5.62</b>                | <b>2.47</b>                                                      |
| <b>ONSHORE</b>                                                                                                                                      | <b>172.42</b>                      | <b>150.62</b>         | <b>188.16</b>                    | <b>150.50</b>                      | <b>860.03</b>                           | <b>782.52</b>                           | <b>942.67</b>                                              | <b>-19.95</b>                 | <b>-16.99</b>               | <b>-12.64</b>                                                    |
| Andhra Pradesh                                                                                                                                      | 1.66                               | 1.41                  | 1.78                             | 1.15                               | 8.59                                    | 5.75                                    | 8.34                                                       | -21.23                        | -31.06                      | -15.06                                                           |
| Arunachal Pradesh                                                                                                                                   | 0.58                               | 0.50                  | 0.39                             | 0.41                               | 2.28                                    | 2.10                                    | 1.94                                                       | 28.21                         | 8.25                        | -13.79                                                           |
| Assam                                                                                                                                               | 31.30                              | 22.72                 | 22.97                            | 20.60                              | 152.32                                  | 121.86                                  | 117.41                                                     | -1.09                         | 3.79                        | -27.41                                                           |
| Gujarat                                                                                                                                             | 17.92                              | 17.16                 | 20.53                            | 15.84                              | 93.11                                   | 85.13                                   | 100.01                                                     | -16.42                        | -14.88                      | -4.24                                                            |
| Rajasthan                                                                                                                                           | 113.20                             | 106.32                | 139.95                           | 108.73                             | 578.50                                  | 550.38                                  | 702.68                                                     | -24.03                        | -21.67                      | -6.08                                                            |
| Tamil Nadu                                                                                                                                          | 7.75                               | 2.51                  | 2.53                             | 3.77                               | 25.24                                   | 17.30                                   | 12.29                                                      | -0.79                         | 40.76                       | -67.61                                                           |
| <b>CBM</b>                                                                                                                                          | <b>81.67</b>                       | <b>70.34</b>          | <b>61.06</b>                     | <b>70.20</b>                       | <b>386.88</b>                           | <b>344.10</b>                           | <b>300.19</b>                                              | <b>15.19</b>                  | <b>14.63</b>                | <b>-13.86</b>                                                    |
| Jharkhand (CBM)                                                                                                                                     | 10.68                              | 8.08                  | 0.36                             | 7.95                               | 46.95                                   | 36.28                                   | 9.77                                                       | -                             | -                           | -24.34                                                           |
| Madhya Pradesh (CBM)                                                                                                                                | 29.76                              | 26.39                 | 25.27                            | 26.71                              | 144.45                                  | 133.46                                  | 116.88                                                     | 4.39                          | 14.19                       | -11.32                                                           |
| West Bengal (CBM)                                                                                                                                   | 41.23                              | 35.88                 | 35.43                            | 35.54                              | 195.48                                  | 174.36                                  | 173.53                                                     | 1.27                          | 0.48                        | -12.98                                                           |
| <b>OFFSHORE</b>                                                                                                                                     | <b>849.47</b>                      | <b>909.83</b>         | <b>956.70</b>                    | <b>916.76</b>                      | <b>4209.58</b>                          | <b>4553.01</b>                          | <b>4774.81</b>                                             | <b>-4.90</b>                  | <b>-4.65</b>                | <b>7.11</b>                                                      |
| Eastern Offshore                                                                                                                                    | 833.18                             | 892.33                | 942.07                           | 900.88                             | 4124.85                                 | 4464.94                                 | 4688.59                                                    | -5.28                         | -4.77                       | 7.10                                                             |
| Gujarat Offshore                                                                                                                                    | 10.84                              | 16.02                 | 13.79                            | 15.86                              | 56.72                                   | 75.19                                   | 69.25                                                      | 16.17                         | 8.58                        | 47.79                                                            |
| Western Offshore                                                                                                                                    | 5.45                               | 1.48                  | 0.84                             | 0.02                               | 28.01                                   | 12.89                                   | 16.98                                                      | 76.19                         | -24.09                      | -72.84                                                           |
| <b>TOTAL (1+2+3)</b>                                                                                                                                | <b>3074.77</b>                     | <b>2965.73</b>        | <b>3048.24</b>                   | <b>2962.15</b>                     | <b>15101.67</b>                         | <b>14709.35</b>                         | <b>15177.54</b>                                            | <b>-2.71</b>                  | <b>-3.08</b>                | <b>-3.54</b>                                                     |
| <b>CBM</b>                                                                                                                                          | <b>81.67</b>                       | <b>70.34</b>          | <b>61.06</b>                     | <b>70.20</b>                       | <b>386.88</b>                           | <b>344.10</b>                           | <b>300.19</b>                                              | <b>15.19</b>                  | <b>14.63</b>                | <b>-13.86</b>                                                    |
| ONSHORE                                                                                                                                             | 876.70                             | 754.77                | 804.06                           | 750.43                             | 4294.41                                 | 3806.54                                 | 3992.11                                                    | -6.13                         | -4.65                       | -13.90                                                           |
| OFFSHORE                                                                                                                                            | 2116.40                            | 2140.62               | 2183.11                          | 2141.52                            | 10420.38                                | 10558.70                                | 10885.24                                                   | -1.95                         | -3.00                       | 1.14                                                             |

Note: Totals may not tally due to rounding off figures. \*: Provisional. \*\*: Revised

Reasons for shortfall are indicated in the note. ^: CPCL CBR refinery is under shutdown due to limitation in meeting required Product specifications with the existing configuration Source: Oil Companies

| Annexure-III (Para-3)                                                                                                                            |                                    |                       |                                  |                                    |                       |           |           |                               |                             |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Crude Oil Processed during the month of August, 2025 and cumulatively for the period April-August, 2025-2026 vis-à-vis April-August, 2024 - 2025 |                                    |                       |                                  |                                    |                       |           |           |                               |                             |                                                                  |
| (Figures in Thousand Metric Tons)                                                                                                                |                                    |                       |                                  |                                    |                       |           |           |                               |                             |                                                                  |
| Name of Undertaking/Unit                                                                                                                         | Target production during the month | Production during the |                                  |                                    | Cumulative Production |           |           | % variation over last year    |                             | % variation during the month under review over Target production |
|                                                                                                                                                  |                                    | Month under review *  | Corresponding month of last year | Preceding month of current year ** | (April-August)        |           |           | During the month under review | Up to the end of the period |                                                                  |
| (1)                                                                                                                                              | (2)                                | (3)                   | (4)                              | (5)                                | (6)                   | (7)       | (8)       | (9)                           | (10)                        | (11)                                                             |
| A. CPSEs Refineries                                                                                                                              | 13839.00                           | 13991.17              | 13382.84                         | 14806.44                           | 70434.71              | 71775.05  | 69695.14  | 4.55                          | 2.98                        | 1.10                                                             |
| 1. IOCL, Barauni                                                                                                                                 | 586.93                             | 483.91                | 586.96                           | 565.85                             | 2961                  | 2653.31   | 2832.89   | -17.56                        | -6.34                       | -17.55                                                           |
| 2. IOCL, Bongaigaon                                                                                                                              | 258.19                             | 261.91                | 236.85                           | 266.38                             | 1274.32               | 1271.34   | 1011.75   | 10.58                         | 25.66                       | 1.44                                                             |
| 3. IOCL, Digboi                                                                                                                                  | 65.99                              | 63.69                 | 68.37                            | 66.61                              | 291.82                | 279.17    | 319.16    | -6.85                         | -12.53                      | -3.48                                                            |
| 4. IOCL, Gujarat                                                                                                                                 | 1225.20                            | 691.54                | 1342.54                          | 793.22                             | 5059.96               | 4492.14   | 6611.53   | -48.49                        | -32.06                      | -43.56                                                           |
| 5. IOCL, Guwahati                                                                                                                                | 111.61                             | 112.05                | 101.2                            | 112.20                             | 531.94                | 542.40    | 533.14    | 10.73                         | 1.74                        | 0.39                                                             |
| 6. IOCL, Haldia                                                                                                                                  | 570.63                             | 734.69                | 283.86                           | 750.42                             | 3535.53               | 3676.01   | 2969.12   | 158.83                        | 23.81                       | 28.75                                                            |
| 7. IOCL, Mathura                                                                                                                                 | 682.00                             | 724.11                | 589.31                           | 837.26                             | 3994.5                | 4113.55   | 3822.26   | 22.88                         | 7.62                        | 6.17                                                             |
| 8. IOCL, Panipat                                                                                                                                 | 1281.02                            | 1291.62               | 1151.37                          | 1374.51                            | 6322.46               | 6617.39   | 6243.99   | 12.18                         | 5.98                        | 0.83                                                             |
| 9. IOCL, Paradip                                                                                                                                 | 1359.66                            | 1417.39               | 1230.42                          | 1418.37                            | 6869.28               | 7003.38   | 5271.42   | 15.20                         | 32.86                       | 4.25                                                             |
| Total IOCL                                                                                                                                       | 6141.24                            | 5780.9                | 5590.87                          | 6184.81                            | 30840.8               | 30648.69  | 29615.26  | 3.40                          | 3.49                        | -5.87                                                            |
| 10. BPCL, Bina                                                                                                                                   | 410.00                             | 245.13                | 531.94                           | 681.15                             | 3045.05               | 2904.28   | 3216.80   | -53.92                        | -9.72                       | -40.21                                                           |
| 11. BPCL, Kochi                                                                                                                                  | 1450.00                            | 1553.48               | 1506.63                          | 1575.09                            | 7400                  | 7627.16   | 7471.63   | 3.11                          | 2.08                        | 7.14                                                             |
| 12. BPCL, Mumbai                                                                                                                                 | 1349.00                            | 1391.37               | 1360.38                          | 1386.15                            | 6457                  | 6718.07   | 6487.59   | 2.28                          | 3.55                        | 3.14                                                             |
| Total BPCL                                                                                                                                       | 3209.00                            | 3189.98               | 3398.96                          | 3642.39                            | 16902.05              | 17249.51  | 17176.02  | -6.15                         | 0.43                        | -0.59                                                            |
| 13. HPCL, Mumbai                                                                                                                                 | 830.00                             | 881.75                | 741.85                           | 855.29                             | 4134                  | 4244.15   | 3827.83   | 18.86                         | 10.88                       | 6.24                                                             |
| 14. HPCL, Vaisakh                                                                                                                                | 1283.70                            | 1339.47               | 1252                             | 1381.06                            | 6218.2                | 6876.04   | 6104.97   | 6.99                          | 12.63                       | 4.34                                                             |
| Total HPCL                                                                                                                                       | 2113.70                            | 2221.22               | 1993.86                          | 2236.35                            | 10352.2               | 11120.19  | 9932.81   | 11.40                         | 11.95                       | 5.09                                                             |
| 15. CPCL, Manali                                                                                                                                 | 652.00                             | 1060.36               | 680.63                           | 956.57                             | 4556                  | 4997.95   | 4390.61   | 55.79                         | 13.83                       | 62.63                                                            |
| Total CPCL                                                                                                                                       | 652.00                             | 1060.36               | 680.63                           | 956.57                             | 4556                  | 4997.95   | 4390.61   | 55.79                         | 13.83                       | 62.63                                                            |
| 16. NRL, Numaligarh                                                                                                                              | 242.36                             | 248.01                | 216.24                           | 259.15                             | 1207.86               | 1306.48   | 1198.03   | 14.69                         | 9.05                        | 2.33                                                             |
| Total NRL                                                                                                                                        | 242.36                             | 248.01                | 216.24                           | 259.15                             | 1207.86               | 1306.48   | 1198.03   | 14.69                         | 9.05                        | 2.33                                                             |
| 17. MRPL, Mangalore                                                                                                                              | 1475.00                            | 1484.09               | 1496.51                          | 1520.94                            | 6550                  | 6421.92   | 7354.40   | -0.83                         | -12.68                      | 0.62                                                             |
| Total MRPL                                                                                                                                       | 1475.00                            | 1484.09               | 1496.51                          | 1520.94                            | 6550                  | 6421.92   | 7354.40   | -0.83                         | -12.68                      | 0.62                                                             |
| 18. ONGC, Tatipaka                                                                                                                               | 5.70                               | 6.61                  | 5.79                             | 6.25                               | 25.8                  | 30.32     | 28.01     | 14.23                         | 8.23                        | 15.96                                                            |
| Total ONGC                                                                                                                                       | 5.70                               | 6.61                  | 5.79                             | 6.25                               | 25.8                  | 30.32     | 28.01     | 14.23                         | 8.23                        | 15.96                                                            |
| B. Private & JVs Refineries                                                                                                                      | 8216.52                            | 8331.92               | 8252.25                          | 8411.15                            | 41316.49              | 41180.53  | 41370.83  | 0.97                          | -0.46                       | 1.40                                                             |
| 1. HMEL, Bhatinda                                                                                                                                | 1098.98                            | 1056.99               | 1098.98                          | 894.46                             | 5480.34               | 5205.81   | 5480.34   | -3.82                         | -5.01                       | -3.82                                                            |
| Total HMEL                                                                                                                                       | 1098.98                            | 1056.99               | 1098.98                          | 894.46                             | 5480.34               | 5205.81   | 5480.34   | -3.82                         | -5.01                       | -3.82                                                            |
| 2. RIL, Jamnagar                                                                                                                                 | 2921.46                            | 3000.07               | 2921.46                          | 2995.92                            | 14556.88              | 13316.88  | 14556.87  | 2.69                          | -8.52                       | 2.69                                                             |
| 3. RIL, SEZ                                                                                                                                      | 2478.93                            | 2868.46               | 2478.93                          | 2830.00                            | 12792.49              | 14424.54  | 12792.48  | 15.71                         | 12.76                       | 15.71                                                            |
| Total RIL                                                                                                                                        | 5400.39                            | 5868.53               | 5400.39                          | 5825.92                            | 27349.37              | 27741.42  | 27349.35  | 8.67                          | 1.43                        | 8.67                                                             |
| 4. NEL, Vadinar                                                                                                                                  | 1717.15                            | 1406.4                | 1752.88                          | 1690.77                            | 8486.78               | 8233.30   | 8541.14   | -19.77                        | -3.60                       | -18.10                                                           |
| Total NEL                                                                                                                                        | 1717.15                            | 1406.4                | 1752.88                          | 1690.77                            | 8486.78               | 8233.30   | 8541.14   | -19.77                        | -3.60                       | -18.10                                                           |
| TOTAL (A+B)                                                                                                                                      | 22055.52                           | 22323.09              | 21635.09                         | 23217.59                           | 111751.2              | 112955.58 | 111065.97 | 3.18                          | 1.70                        | 1.21                                                             |

Note: Totals may not tally due to rounding off figures. \*: Provisional. \*\*: Revised

Reasons for shortfall are indicated in the note. ^: CPCL CBR refinery is under shutdown due to limitation in meeting required Product specifications with the existing configuration Source: Oil Companies

| Annexure-IV (Para-3)                                                                                                                                          |                             |                      |                                     |                             |                      |                                     |                             |                      |                                     |                             |                      |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Refinery-wise Capacity Utilisation during the month of August, 2025 and cumulatively for the period April-August, 2025-2026 vis-à-vis April-August, 2024-2025 |                             |                      |                                     |                             |                      |                                     |                             |                      |                                     |                             |                      |                                     |
| (Figures in Thousand Metric Tons)                                                                                                                             |                             |                      |                                     |                             |                      |                                     |                             |                      |                                     |                             |                      |                                     |
| Name of Undertaking/Unit/State                                                                                                                                | August, 2025                |                      |                                     | August, 2024                |                      |                                     | April-August, 2025-2026     |                      |                                     | April-August, 2024-2025     |                      |                                     |
|                                                                                                                                                               | Prorated Installed Capacity | Actual Crude T'put * | % Utilisation of Installed Capacity | Prorated Installed Capacity | Actual Crude T'put * | % Utilisation of Installed Capacity | Prorated Installed Capacity | Actual Crude T'put * | % Utilisation of Installed Capacity | Prorated Installed Capacity | Actual Crude T'put * | % Utilisation of Installed Capacity |
| (1)                                                                                                                                                           | (2)                         | (3)                  | (4)                                 | (5)                         | (6)                  | (7)                                 | (8)                         | (9)                  | (10)                                | (11)                        | (12)                 | (13)                                |
| <b>A. CPSEs Refineries</b>                                                                                                                                    | <b>13361.00</b>             | <b>13991.17</b>      | <b>104.72</b>                       | <b>13361.09</b>             | <b>13382.84</b>      | <b>100.16</b>                       | <b>65943.42</b>             | <b>71775.04</b>      | <b>108.84</b>                       | <b>65943.42</b>             | <b>69695.14</b>      | <b>105.69</b>                       |
| 1. IOCL, Barauni                                                                                                                                              | 509.59                      | 483.91               | 94.96                               | 509.59                      | 586.96               | 115.18                              | 2515.07                     | 2653.31              | 105.50                              | 2515.07                     | 2832.89              | 112.64                              |
| 2. IOCL, Bongaigaon                                                                                                                                           | 229.32                      | 261.91               | 114.21                              | 229.32                      | 236.85               | 103.28                              | 1131.78                     | 1271.34              | 112.33                              | 1131.78                     | 1011.75              | 89.39                               |
| 3. IOCL, Digboi                                                                                                                                               | 55.21                       | 63.69                | 115.36                              | 55.21                       | 68.37                | 123.85                              | 272.47                      | 279.17               | 102.46                              | 272.47                      | 319.16               | 117.14                              |
| 4. IOCL, Gujarat                                                                                                                                              | 1163.56                     | 691.54               | 59.43                               | 1163.56                     | 1342.54              | 115.38                              | 5742.74                     | 4492.14              | 78.22                               | 5742.74                     | 6611.53              | 115.13                              |
| 5. IOCL, Guwahati                                                                                                                                             | 101.92                      | 112.05               | 109.94                              | 101.92                      | 101.20               | 99.29                               | 503.01                      | 542.40               | 107.83                              | 503.01                      | 533.14               | 105.99                              |
| 6. IOCL, Haldia                                                                                                                                               | 679.45                      | 734.69               | 108.13                              | 679.45                      | 283.86               | 41.78                               | 3353.43                     | 3676.01              | 109.62                              | 3353.43                     | 2969.12              | 88.54                               |
| 7. IOCL, Mathura                                                                                                                                              | 679.45                      | 724.11               | 106.57                              | 679.45                      | 589.31               | 86.73                               | 3353.43                     | 4113.55              | 122.67                              | 3353.43                     | 3822.26              | 113.98                              |
| 8. IOCL, Panipat                                                                                                                                              | 1273.97                     | 1291.62              | 101.39                              | 1273.97                     | 1151.37              | 90.38                               | 6287.67                     | 6617.39              | 105.24                              | 6287.67                     | 6243.99              | 99.31                               |
| 9. IOCL, Paradip                                                                                                                                              | 1273.97                     | 1417.39              | 111.26                              | 1273.97                     | 1230.42              | 96.58                               | 6287.67                     | 7003.38              | 111.38                              | 6287.67                     | 5271.42              | 83.84                               |
| <b>Total IOCL</b>                                                                                                                                             | <b>5966.44</b>              | <b>5780.90</b>       | <b>96.89</b>                        | <b>5966.44</b>              | <b>5590.87</b>       | <b>93.71</b>                        | <b>29447.26</b>             | <b>30648.69</b>      | <b>104.08</b>                       | <b>29447.26</b>             | <b>29615.26</b>      | <b>100.57</b>                       |
| 10. BPCL, Mumbai                                                                                                                                              | 1019.18                     | 1391.37              | 136.52                              | 1019.18                     | 1360.38              | 133.48                              | 5030.14                     | 6718.07              | 133.56                              | 5030.14                     | 6487.60              | 128.97                              |
| 11. BPCL, Bina                                                                                                                                                | 662.47                      | 245.12               | 37.00                               | 662.47                      | 531.95               | 80.30                               | 3269.59                     | 2904.28              | 88.83                               | 3269.59                     | 3216.80              | 98.39                               |
| 12. BPCL, Kochi                                                                                                                                               | 1316.44                     | 1553.49              | 118.01                              | 1316.44                     | 1506.63              | 114.45                              | 6497.26                     | 7627.16              | 117.39                              | 6497.26                     | 7471.63              | 115.00                              |
| <b>Total BPCL</b>                                                                                                                                             | <b>2998.09</b>              | <b>3189.98</b>       | <b>106.40</b>                       | <b>2998.08</b>              | <b>3398.96</b>       | <b>113.37</b>                       | <b>14796.99</b>             | <b>17249.51</b>      | <b>116.57</b>                       | <b>14796.99</b>             | <b>17176.03</b>      | <b>116.08</b>                       |
| 13. HPCL, Mumbai                                                                                                                                              | 806.85                      | 881.75               | 109.28                              | 806.85                      | 741.85               | 91.94                               | 3982.19                     | 4244.15              | 106.58                              | 3982.19                     | 3827.83              | 96.12                               |
| 14. HPCL, Vaisakh                                                                                                                                             | 1163.56                     | 1339.47              | 115.12                              | 1163.56                     | 1252.00              | 107.60                              | 5742.74                     | 6876.04              | 119.73                              | 5742.74                     | 6104.97              | 106.31                              |
| <b>Total HPCL</b>                                                                                                                                             | <b>1970.41</b>              | <b>2221.22</b>       | <b>112.73</b>                       | <b>1970.41</b>              | <b>1993.86</b>       | <b>101.19</b>                       | <b>9724.93</b>              | <b>11120.19</b>      | <b>114.35</b>                       | <b>9724.93</b>              | <b>9932.81</b>       | <b>102.14</b>                       |
| 15. CPCL, Manali                                                                                                                                              | 891.78                      | 1060.36              | 118.90                              | 891.78                      | 680.63               | 76.32                               | 4401.37                     | 4997.95              | 113.55                              | 4401.37                     | 4390.61              | 99.76                               |
| <b>Total CPCL</b>                                                                                                                                             | <b>891.78</b>               | <b>1060.36</b>       | <b>118.90</b>                       | <b>891.78</b>               | <b>680.63</b>        | <b>76.32</b>                        | <b>4401.37</b>              | <b>4997.95</b>       | <b>113.55</b>                       | <b>4401.37</b>              | <b>4390.61</b>       | <b>99.76</b>                        |
| 16. NRL, Numaligarh                                                                                                                                           | 254.79                      | 248.01               | 97.34                               | 254.80                      | 216.24               | 84.87                               | 1257.53                     | 1306.48              | 103.89                              | 1257.53                     | 1198.03              | 95.27                               |
| <b>Total NRL</b>                                                                                                                                              | <b>254.79</b>               | <b>248.01</b>        | <b>97.34</b>                        | <b>254.80</b>               | <b>216.24</b>        | <b>84.87</b>                        | <b>1257.53</b>              | <b>1306.48</b>       | <b>103.89</b>                       | <b>1257.53</b>              | <b>1198.03</b>       | <b>95.27</b>                        |
| 17. MRPL, Mangalore                                                                                                                                           | 1273.97                     | 1484.09              | 116.49                              | 1273.97                     | 1496.51              | 117.47                              | 6287.67                     | 6421.91              | 102.14                              | 6287.67                     | 7354.40              | 116.97                              |
| <b>Total MRPL</b>                                                                                                                                             | <b>1273.97</b>              | <b>1484.09</b>       | <b>116.49</b>                       | <b>1273.97</b>              | <b>1496.51</b>       | <b>117.47</b>                       | <b>6287.67</b>              | <b>6421.91</b>       | <b>102.14</b>                       | <b>6287.67</b>              | <b>7354.40</b>       | <b>116.97</b>                       |
| 18. ONGC, Tatipaka                                                                                                                                            | 5.61                        | 6.61                 | 117.83                              | 5.61                        | 5.79                 | 103.23                              | 27.67                       | 30.32                | 109.58                              | 27.67                       | 28.01                | 101.25                              |
| <b>Total ONGC</b>                                                                                                                                             | <b>5.61</b>                 | <b>6.61</b>          | <b>117.83</b>                       | <b>5.61</b>                 | <b>5.79</b>          | <b>103.23</b>                       | <b>27.67</b>                | <b>30.32</b>         | <b>109.58</b>                       | <b>27.67</b>                | <b>28.01</b>         | <b>101.25</b>                       |
| <b>B. Private &amp; JVs Refineries</b>                                                                                                                        | <b>8451.00</b>              | <b>8331.92</b>       | <b>98.59</b>                        | <b>8450.69</b>              | <b>8252.25</b>       | <b>97.65</b>                        | <b>41708.22</b>             | <b>41180.53</b>      | <b>98.73</b>                        | <b>41708.22</b>             | <b>41370.83</b>      | <b>99.19</b>                        |
| 1. HMEL, Bhatinda                                                                                                                                             | 959.73                      | 1056.99              | 110.13                              | 959.73                      | 1098.98              | 114.51                              | 4736.71                     | 5205.81              | 109.90                              | 4736.71                     | 5480.34              | 115.70                              |
| <b>Total HMEL</b>                                                                                                                                             | <b>959.73</b>               | <b>1056.99</b>       | <b>110.13</b>                       | <b>959.73</b>               | <b>1098.98</b>       | <b>114.51</b>                       | <b>4736.71</b>              | <b>5205.81</b>       | <b>109.90</b>                       | <b>4736.71</b>              | <b>5480.34</b>       | <b>115.70</b>                       |
| 2. RIL, Jamnagar                                                                                                                                              | 2802.74                     | 3000.07              | 107.04                              | 2802.74                     | 2921.46              | 104.24                              | 13832.88                    | 13316.88             | 96.27                               | 13832.88                    | 14556.87             | 105.23                              |
| 3. RIL, SEZ                                                                                                                                                   | 2989.59                     | 2868.46              | 95.95                               | 2989.59                     | 2478.93              | 82.92                               | 14755.07                    | 14424.54             | 97.76                               | 14755.07                    | 12792.48             | 86.70                               |
| <b>Total RIL</b>                                                                                                                                              | <b>5792.33</b>              | <b>5868.53</b>       | <b>101.32</b>                       | <b>5792.33</b>              | <b>5400.39</b>       | <b>93.23</b>                        | <b>28587.95</b>             | <b>27741.42</b>      | <b>97.04</b>                        | <b>28587.95</b>             | <b>27349.35</b>      | <b>95.67</b>                        |
| 4. NEL, Vadinar                                                                                                                                               | 1698.63                     | 1406.40              | 82.80                               | 1698.63                     | 1752.88              | 103.19                              | 8383.56                     | 8233.30              | 98.21                               | 8383.56                     | 8541.14              | 101.88                              |
| <b>Total NEL</b>                                                                                                                                              | <b>1698.63</b>              | <b>1406.40</b>       | <b>82.80</b>                        | <b>1698.63</b>              | <b>1752.88</b>       | <b>103.19</b>                       | <b>8383.56</b>              | <b>8233.30</b>       | <b>98.21</b>                        | <b>8383.56</b>              | <b>8541.14</b>       | <b>101.88</b>                       |
| <b>Total (A+B)</b>                                                                                                                                            | <b>21812.00</b>             | <b>22323.09</b>      | <b>102.34</b>                       | <b>21811.77</b>             | <b>21635.09</b>      | <b>99.19</b>                        | <b>107651.64</b>            | <b>112955.57</b>     | <b>104.93</b>                       | <b>107651.64</b>            | <b>111065.97</b>     | <b>103.17</b>                       |

Note: Totals may not tally due to rounding off figures. \*: Provisional. \*\*: Revised

Reasons for shortfall are indicated in the note. ^: CPCL CBR refinery is under shutdown due to limitation in meeting required Product specifications with the existing configuration

Source: Oil Companies

## Production of Petroleum Products during the month of August, 2025 and cumulatively for the period April-August, 2025-2026 vis-à-vis April-August, 2024 - 2025

(Figures in Thousand Metric Tons)

| Name of Undertaking/Unit                               | Target production during the month | Production during the |                                  |                                    | Cumulative Production                 |                                         |                                                            | % variation over last year    |                             | % variation during the month under review over Target production |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                    | Month under review *  | Corresponding month of last year | Preceding month of current year ** | (April-August)                        |                                         |                                                            |                               |                             |                                                                  |
|                                                        |                                    |                       |                                  |                                    | Target production during current year | Actual production during current year * | Actual production during corresponding period of last year | During the month under review | Up to the end of the period |                                                                  |
| (1)                                                    | (2)                                | (3)                   | (4)                              | (5)                                | (6)                                   | (7)                                     | (8)                                                        | (9)                           | (10)                        | (11)                                                             |
| A. CPSEs Refineries                                    | 13063.39                           | 13228.53              | 12660.64                         | 13929.91                           | 66768.12                              | 67872.64                                | 66212.21                                                   | 4.49                          | 2.51                        | 1.26                                                             |
| 1. IOCL, Barauni                                       | 558.86                             | 440.92                | 538.91                           | 538.51                             | 2833.11                               | 2558.81                                 | 2688.24                                                    | -18.18                        | -4.81                       | -21.10                                                           |
| 2. IOCL, Bongaigaon                                    | 250.84                             | 278.88                | 208.09                           | 258.21                             | 1222.51                               | 1260.72                                 | 907.98                                                     | 34.02                         | 38.85                       | 11.18                                                            |
| 3. IOCL, Digboi                                        | 66.95                              | 66.27                 | 65.28                            | 67.08                              | 291.81                                | 275.53                                  | 320.95                                                     | 1.51                          | -14.15                      | -1.00                                                            |
| 4. IOCL, Gujarat                                       | 1202.83                            | 576.91                | 1260.84                          | 764.95                             | 4824.67                               | 4165.14                                 | 6456.77                                                    | -54.24                        | -35.49                      | -52.04                                                           |
| 5. IOCL, Guwahati                                      | 116.8                              | 128                   | 112.85                           | 126.92                             | 556.25                                | 596.71                                  | 578.94                                                     | 13.43                         | 3.07                        | 9.59                                                             |
| 6. IOCL, Haldia                                        | 508.28                             | 679.35                | 285.74                           | 714.16                             | 3361.24                               | 3488.28                                 | 2895.67                                                    | 137.75                        | 20.47                       | 33.66                                                            |
| 7. IOCL, Mathura                                       | 666.45                             | 743.97                | 569.63                           | 814.29                             | 3943.47                               | 4084.11                                 | 3784.1                                                     | 30.60                         | 7.93                        | 11.63                                                            |
| 8. IOCL, Panipat                                       | 1280.69                            | 1313.52               | 1153.02                          | 1351.69                            | 6577.05                               | 6676.1                                  | 6412.29                                                    | 13.92                         | 4.11                        | 2.56                                                             |
| 9. IOCL, Paradip                                       | 1232.12                            | 1219.22               | 1064.25                          | 1220.73                            | 6075.09                               | 6249.06                                 | 4669.03                                                    | 14.56                         | 33.84                       | -1.05                                                            |
| Total IOCL                                             | 5883.81                            | 5447.05               | 5258.63                          | 5856.54                            | 29685.2                               | 29354.48                                | 28713.98                                                   | 3.58                          | 2.23                        | -7.42                                                            |
| 1. BPCL, Bina                                          | 320.3                              | 206.49                | 504.25                           | 623.39                             | 2721.7                                | 2631.52                                 | 2863.96                                                    | -59.05                        | -8.12                       | -35.53                                                           |
| 2. BPCL, Kochi                                         | 1413.8                             | 1484.03               | 1433.51                          | 1438.01                            | 7066.8                                | 7135.32                                 | 7001.32                                                    | 3.52                          | 1.91                        | 4.97                                                             |
| 3. BPCL, Mumbai                                        | 1296.8                             | 1339.32               | 1324.14                          | 1348.88                            | 6198.8                                | 6452.1                                  | 6262.92                                                    | 1.15                          | 3.02                        | 3.28                                                             |
| Total BPCL                                             | 3030.9                             | 3029.84               | 3261.9                           | 3410.28                            | 15987.3                               | 16218.94                                | 16128.2                                                    | -7.11                         | 0.56                        | -0.04                                                            |
| 1. HPCL, Mumbai                                        | 767.8                              | 847.81                | 717.01                           | 794.42                             | 3825.77                               | 4018.24                                 | 3549.54                                                    | 18.24                         | 13.20                       | 10.42                                                            |
| 2. HPCL, Vaisakh                                       | 1172.55                            | 1269.86               | 1201.68                          | 1252.17                            | 5717.39                               | 6261.25                                 | 5745.51                                                    | 5.67                          | 8.98                        | 8.30                                                             |
| Total HPCL                                             | 1940.36                            | 2117.67               | 1918.69                          | 2046.59                            | 9543.16                               | 10279.49                                | 9295.04                                                    | 10.37                         | 10.59                       | 9.14                                                             |
| 1. CPCL, Manali                                        | 608.9                              | 1013.53               | 637.75                           | 1016.26                            | 4323.3                                | 4883.44                                 | 4212.17                                                    | 58.92                         | 15.94                       | 66.45                                                            |
| Total CPCL                                             | 608.9                              | 1013.53               | 637.75                           | 1016.26                            | 4323.3                                | 4883.44                                 | 4212.17                                                    | 58.92                         | 15.94                       | 66.45                                                            |
| 1. NRL, Numaligarh                                     | 240.32                             | 251.64                | 222.18                           | 264.80                             | 1197.77                               | 1298.22                                 | 1192.74                                                    | 13.26                         | 8.84                        | 4.71                                                             |
| Total NRL                                              | 240.32                             | 251.64                | 222.18                           | 264.80                             | 1197.77                               | 1298.22                                 | 1192.74                                                    | 13.26                         | 8.84                        | 4.71                                                             |
| 1. MRPL, Mangalore                                     | 1353.6                             | 1362.32               | 1355.99                          | 1329.33                            | 6006.7                                | 5808.34                                 | 6643.57                                                    | 0.47                          | -12.57                      | 0.64                                                             |
| Total MRPL                                             | 1353.6                             | 1362.32               | 1355.99                          | 1329.33                            | 6006.7                                | 5808.34                                 | 6643.57                                                    | 0.47                          | -12.57                      | 0.64                                                             |
| 1. ONGC, Tatipaka                                      | 5.5                                | 6.48                  | 5.51                             | 6.12                               | 24.7                                  | 29.74                                   | 26.5                                                       | 17.67                         | 12.20                       | 17.87                                                            |
| Total ONGC                                             | 5.5                                | 6.48                  | 5.51                             | 6.12                               | 24.7                                  | 29.74                                   | 26.5                                                       | 17.67                         | 12.20                       | 17.87                                                            |
| B. Private & JVs Refineries                            | 9758.05                            | 9827.32               | 9747.65                          | 9779.57                            | 49382.54                              | 48112.51                                | 49385.62                                                   | 0.82                          | -2.58                       | 0.71                                                             |
| 1. HMEL, Bhatinda                                      | 976.63                             | 1041.58               | 976.63                           | 768.59                             | 5298.96                               | 4869.32                                 | 5298.97                                                    | 6.65                          | -8.11                       | 6.65                                                             |
| Total HMEL                                             | 976.63                             | 1041.58               | 976.63                           | 768.59                             | 5298.96                               | 4869.32                                 | 5298.97                                                    | 6.65                          | -8.11                       | 6.65                                                             |
| 2. RIL, Jamnagar                                       | 3037.66                            | 3116.36               | 3037.66                          | 3157.41                            | 15472.74                              | 14402.8                                 | 15472.74                                                   | 2.59                          | -6.92                       | 2.59                                                             |
| 3. RIL, SEZ                                            | 4116.8                             | 4244.01               | 4116.8                           | 4233.24                            | 20497.4                               | 20792.85                                | 20497.4                                                    | 3.09                          | 1.44                        | 3.09                                                             |
| Total RIL                                              | 7154.46                            | 7360.36               | 7154.46                          | 7390.65                            | 35970.14                              | 35195.64                                | 35970.14                                                   | 2.88                          | -2.15                       | 2.88                                                             |
| 4. NEL, Vadinar                                        | 1626.96                            | 1425.37               | 1616.56                          | 1620.32                            | 8113.44                               | 8047.55                                 | 8116.52                                                    | -11.83                        | -0.85                       | -12.39                                                           |
| Total NEL                                              | 1626.96                            | 1425.37               | 1616.56                          | 1620.32                            | 8113.44                               | 8047.55                                 | 8116.52                                                    | -11.83                        | -0.85                       | -12.39                                                           |
| Total Refinerys Production of Petroleum Product (A+B)  | 22821.44                           | 23055.84              | 22408.29                         | 23709.48                           | 116150.66                             | 115985.15                               | 115597.83                                                  | 2.89                          | 0.34                        | 1.03                                                             |
| ONGC (Uran + Hazira + Ankleshwar + dahej)              | 146.84                             | 234.14                | 196.76                           | 208.88                             | 713.12                                | 1061.2                                  | 1033.05                                                    | 19.00                         | 2.73                        | 59.46                                                            |
| GAIL (Vaghodia + Vijapur + pata + Gandhar)             | 52.74                              | 73.86                 | 79.43                            | 75.51                              | 226.29                                | 348                                     | 384.48                                                     | -7.01                         | -9.49                       | 40.03                                                            |
| OIL (Duliajan)                                         | 2.8                                | 2.93                  | 2.55                             | 2.92                               | 9.6                                   | 11.76                                   | 13.6                                                       | 14.80                         | -13.53                      | 4.71                                                             |
| C. Total Fractionators Production of Petroleum Product | 202.38                             | 310.93                | 278.75                           | 287.30                             | 949.02                                | 1420.96                                 | 1431.13                                                    | 11.55                         | -0.71                       | 53.64                                                            |
| Grand Total (A+B+C)                                    | 23023.82                           | 23366.78              | 22687.04                         | 23996.78                           | 117099.68                             | 117406.11                               | 117028.96                                                  | 3.00                          | 0.32                        | 1.49                                                             |

Note: Totals may not tally due to rounding off figures. \*: Provisional. \*\*: Revised

Reasons for shortfall are indicated in the note. ^: CPCL CBR refinery is under shutdown due to limitation in meeting required Product specifications with the existing configuration Source: Oil Companies

भारत सरकार  
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय  
आर्थिक और सांख्यिकी प्रभाग

\*\*\*\*\*

नई दिल्ली

दिनांक : 15 सितंबर, 2025

मासिक उत्पादन रिपोर्ट  
अगस्त 2025

**1. कच्चे तेल का उत्पादन**

कच्चे तेल का उत्पादन<sup>1</sup> अगस्त, 2025 के दौरान 2374.5 टीएमटी था, जो माह के लिए लक्ष्य से 10.75% कम और अगस्त, 2024 के उत्पादन की तुलना में 1.22% कम है। अप्रैल-अगस्त, 2025 की अवधि के दौरान कच्चे तेल का संचयी उत्पादन 11888.95 टीएमटी था, जो इस अवधि के लिए लक्ष्य से 8.96% कम है और पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में क्रमशः 1.67 % कम है। कच्चे तेल का इकाई-वार और राज्य-वार उत्पादन अनुलग्नक में दिया गया है। अगस्त, 2025 माह के लिए इकाई-वार कच्चे तेल का उत्पादन और अप्रैल-अगस्त, 2025-26 के लिए पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में संचयी कच्चे तेल का उत्पादन तालिका-1 में और माह-वार विवरण चित्र-1 में दिखाया गया है।

**तालिका-1: कच्चे तेल का उत्पादन (टीएमटी में)**


| तेल कंपनी                                    | लक्ष्य          | अगस्त (माह)    |                |                |                           | अप्रैल- अगस्त (संचयी) |                 |                 |                           |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|                                              |                 | 2025-26        |                | 2024-25        | पिछले वर्ष की तुलना में % | 2025-26               |                 | 2024-25         | पिछले वर्ष की तुलना में % |
|                                              |                 | लक्ष्य *       | उत्पादन*       | उत्पादन        |                           | लक्ष्य *              | उत्पादन*        | उत्पादन         |                           |
| ओएनजीसी (नामांकन ब्लॉक)                      | 19828.42        | 1679.09        | 1511.27        | 1569.71        | -3.72                     | 8211.00               | 7550.44         | 7857.23         | -3.90                     |
| ओआईएल (नामांकन ब्लॉक)                        | 3776.00         | 316.96         | 287.30         | 298.43         | -3.73                     | 1534.63               | 1425.61         | 1462.08         | -2.49                     |
| निजी/संयुक्त उद्यम (पीएससी/आरए ससी व्यवस्था) | 7849.28         | 664.40         | 575.93         | 535.59         | 7.53                      | 3313.02               | 2912.90         | 2771.60         | 5.10                      |
| <b>कुल</b>                                   | <b>31453.70</b> | <b>2660.44</b> | <b>2374.50</b> | <b>2403.73</b> | <b>-1.22</b>              | <b>13058.65</b>       | <b>11888.95</b> | <b>12090.92</b> | <b>-1.67</b>              |

नोट: पूर्णांकन के कारण योग का मिलान नहीं हो सकता है।

\*:अनंतिम

<sup>1</sup> कंडेन्सेट सम्मिलित

चित्र-1 मासिक कच्चे तेल का उत्पादन



उत्पादन में कमी के कारणों सहित इकाई-वार उत्पादन विवरण निम्नानुसार है:

**1.1** नामांकन ब्लॉकों में ओएनजीसी (ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन) द्वारा कच्चे तेल का उत्पादन अगस्त, 2025 के दौरान 1511.27 टीएमटी था, जो माह के लक्ष्य से 9.99% कम है और अगस्त, 2024 के उत्पादन की तुलना में 3.72% कम है। ओएनजीसी द्वारा अप्रैल – अगस्त, 2025 के दौरान संचयी कच्चे तेल का उत्पादन 7550.44 टीएमटी था, जो अवधि के लिए लक्ष्य की तुलना में क्रमशः 8.04% कम है लेकिन पिछले वर्ष की इसी अवधि के उत्पादन से 3.90% कम है। उत्पादन में कमी के कारण निम्नानुसार है:

- क्लस्टर-7/8: एफपीएसओ में कम गैस हैंडलिंग क्षमता के कारण कम तेल उत्पादन।
- बी एंड एस परिसंपत्ति: एनबीपी/रत्ना क्षेत्र में ईएसपी की ट्रिपिंग और विफलता के कारण कम तेल उत्पादन और परिसंपत्ति के अन्य क्षेत्रों में योजना से कम आधार उत्पादन के कारण कमी।
- उत्तर कादी में जल कटौती में वृद्धि, जोटाना और लिंच में दबाव और द्रव में कमी और मेहसाणा परिसंपत्ति में लिंच, सोभासन, उत्तर कादी और बालोल क्षेत्रों में अनुमानित उत्पादन से कम।
- अहमदाबाद परिसंपत्ति में कलोल, अहमदाबाद और नवगाम क्षेत्र में गिरावट।
- अंकलेश्वर परिसंपत्ति में पश्चिम मटर और अंकलेश्वर क्षेत्रों में द्रव उत्पादन में गिरावट।
- कैम्बे परिसंपत्ति में अंकलाव, पादरा और अखोलजुनी क्षेत्रों में जल कटौती और कूपों के बंद होने में वृद्धि।
- मुख्य रूप से हाटीपोटी क्षेत्र में जलस्तर में कमी और असम एसेट में लकवा, लखमनी और आरडीएस क्षेत्रों में जल कटौती में वृद्धि के कारण आधार कूपों से उत्पादन में गिरावट देखी गई।
- टीएचपी में कमी और जल कटौती में वृद्धि के कारण राजमुंदरी एसेट में गोपावरम, मल्लेश्वरम और केसनपल्ली-पश्चिम क्षेत्रों में उत्पादन में गिरावट।
- डेल्टा क्षेत्र में कूपों की ड्रिलिंग/साइड ट्रैकिंग पर प्रतिबंध और कावेरी एसेट में विकास इनपुट के लिए ईसी की अनुपलब्धता।

**1.2** नामांकन ब्लॉकों में ओआईएल (ऑयल इंडिया लिमिटेड) द्वारा कच्चे तेल का उत्पादन अगस्त, 2025 के दौरान 287.3 टीएमटी था, जो माह के लक्ष्य से 9.36% कम और अगस्त, 2024 के उत्पादन की तुलना में 3.73% कम है। अप्रैल- अगस्त,

2025 के दौरान ओआईएल द्वारा कच्चे तेल का संचयी उत्पादन 1425.61 टीएमटी था, जो इस अवधि के लक्ष्य से 7.10 % कम है, और पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान उत्पादन की तुलना में 2.49% कम है। उत्पादन में कमी के प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं:

- ड्रिलिंग कूपों/पुराने कूपों से नियोजित योगदान से कम उत्पादन
- वर्कओवर कूपों से नियोजित योगदान से कम उत्पादन
- प्रमुख उपभोक्ताओं द्वारा प्राकृतिक गैस का कम उठाव, कच्चे तेल के उत्पादन को प्रभावित करता है। उच्च उत्पादन वाले कूपों को वर्कओवर के लिए ले जाया जाता है।
- प्रचालन-संबंधी हानि।
- उत्पादन में उतार-चढ़ाव।

**1.3** पीएससी/आरएससी व्यवस्था में निजी/संयुक्त उद्यमों द्वारा कच्चे तेल का उत्पादन अगस्त, 2025 के दौरान 5 75.93 टीएमटी था, जो माह के लक्ष्य से 13.31% कम है और अगस्त, 2025 के दौरान माह उत्पादन से 7.53% अधिक है। अप्रैल-अगस्त, 2025 के दौरान निजी/संयुक्त उद्यमों द्वारा संचयी कच्चे तेल का उत्पादन 2912.9 टीएमटी था, जो कि इस अवधि के लक्ष्य और पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान उत्पादन से क्रमशः 12.08% कम और 5.10% अधिक है:

- आरजे-ओएन-90/1: 1. मंगला: कई कूपों की विफलताएँ और कम पॉलीमर अंतःक्षेपण। 2. भाग्यम: अनियोजित कूप डाउनटाइम और कम पॉलीमर अंतःक्षेपण। 3. ऐश्वर्या: अनियोजित कूप और सतह डाउनटाइम। कम पॉलीमर अंतःक्षेपण। 4. गुडा: मोम जमने के कारण गुडा#2 कूप में उच्च जल-कटाव और गुडा#07 कूप में डाउनटाइम देखा गया। 5. सरस्वती: सरस्वती-9 कूप का वेधन और हुक-अप में देरी और सरस्वती -10.6 कूप में कम उत्पादन का कम प्रदर्शन। तुकाराम: सक्रियण में सुविधा की कमी के कारण तुकाराम-4 बंद। (वेदांता)
- केजी-डाउन-98/2: तेल क्षेत्र के कूप अनुमानित उत्पादन से कम उत्पादन कर रहे हैं। (ओएनजीसी)
- सीबी-ओएनएन-2000/1: कूप, पीके2#ए1, सकर रॉड पंप की खराबी के कारण 18 अगस्त 2025 से बंद है। इसके अलावा, यूजीवीसीएल द्वारा बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण एसआरपी द्वारा संचालित कूपों पीके2#ए1, पीके2#ए2 में उत्पादन घंटों में कमी आई है। (जीएसपीसी)
- एमबी/ओएसडीएसएफ/बी80/2016: एफएसओ मूरिंग चेन क्षति के कारण प्रक्रिया बंद। (एचओईसी)
- एएमजीयूआरआई: गैस के कम उठाव के कारण संघनित उत्पादन में कमी। (ओआईएलमैक्स)

## 2. प्राकृतिक गैस का उत्पादन

प्राकृतिक गैस का उत्पादन अगस्त, 2025 के दौरान 2965.73 एमएमएससीएम था, जो मासिक लक्ष्य से 3.55% कम और अगस्त, 2024 के दौरान हुए उत्पादन से 2.71% कम है। अप्रैल-अगस्त, 2025 के दौरान संचयी प्राकृतिक गैस उत्पादन 14709.35 एमएमएससीएम था, जो इस अवधि के लक्ष्य की तुलना में 2.60% कम है और पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान उत्पादन से 3.08% कम है। प्राकृतिक गैस का इकाई-वार और राज्य-वार उत्पादन अनुलग्नक-II में दिया गया है। अगस्त, 2025 माह के लिए इकाई-वार प्राकृतिक गैस का उत्पादन और पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-अगस्त 2025-26 के लिए प्राकृतिक गैस का संचयी उत्पादन तालिका-2 और माह-वार विवरण चित्र-2 में दिखाया गया है।


तालिका-2: प्राकृतिक गैस उत्पादन (एमएमएससीएम में)

| तेल कंपनी                                   | लक्ष्य          | अगस्त (माह)    |                |                |                           | अप्रैल- अगस्त (संचयी)  |                 |                 |              |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|                                             | 2025-26         | 2025-26        |                | 2024-25        | पिछले वर्ष की तुलना में % | 2025-26(अप्रैल-मार्च)* |                 | 2025-26         | 2024-25      |
|                                             | (अप्रैल-मार्च)* | लक्ष्य *       | उत्पादन *      | उत्पादन        |                           | लक्ष्य *               | उत्पादन *       | उत्पादन         |              |
| ओएनजीसी (नामांकन ब्लॉक)                     | 19903.60        | 1654.95        | 1569.07        | 1572.02        | -0.19                     | 8102.17                | 7697.05         | 7840.16         | -1.83        |
| ओआईएल (नामांकन ब्लॉक)                       | 3659.14         | 316.26         | 265.88         | 270.31         | -1.64                     | 1543.01                | 1332.67         | 1319.71         | 0.98         |
| निजी/संयुक्त उद्यम (पीएससी/आरएससी व्यवस्था) | 12914.63        | 1103.56        | 1130.78        | 1205.91        | -6.23                     | 5456.49                | 5679.63         | 6017.67         | -5.62        |
| <b>कुल</b>                                  | <b>36477.37</b> | <b>3074.77</b> | <b>2965.73</b> | <b>3048.24</b> | <b>-2.71</b>              | <b>15101.67</b>        | <b>14709.35</b> | <b>15177.53</b> | <b>-3.08</b> |

नोट : पूर्णांकन के कारण योग का मिलान नहीं हो सकता है।

\* अनंतिम

चित्र-2 : मासिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन



**2.1** नामांकन ब्लॉकों में ओएनजीसी (ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन) द्वारा प्राकृतिक गैस का उत्पादन अगस्त, 2025 के दौरान 1569.07 एमएमएससीएम था जो माह के लिए लक्ष्य से 5.19 % कम है और अगस्त, 2024 के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में 0.19% कम है। अप्रैल- अगस्त, 2025 के दौरान ओएनजीसी द्वारा संचयी प्राकृतिक गैस उत्पादन 7697.05 एमएमएससीएम था, जो कि अवधि के लक्ष्य और पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान उत्पादन से क्रमशः 5.00% कम और 1.83% कम है। उत्पादन में कमी के कारण निम्नानुसार हैं:

- बेसिन, पल्ला और वसई पूर्व: कूपों के कम प्रदर्शन के कारण नियोजित गैस उत्पादन से कम।
- उपभोक्ता उठाव संबंधी समस्याएँ, उपभोक्ता शटडाउन और कूपों की ड्रिलिंग/साइड ट्रैकिंग पर प्रतिबंध और कावेरी परिसंपत्ति में विकास इनपुट के लिए पर्यावरण मंजूरी (ईसी) की अनुपलब्धता।
- असम परिसंपत्ति के क्षेत्रों से तेल उत्पादन में भारी कमी के कारण संबद्ध गैस उत्पादन में कमी।

- त्रिपुरा परिसंपत्ति में उपभोक्ता शटडाउन के कारण कम गैस उठावा। अगरतला डोम और सुंदुलबारी क्षेत्रों में अनुमान से अधिक गिरावट देखी गई।
- आईजीजीएल द्वारा लाइन बिछाने में देरी के कारण सिलचर में गैस उत्पादन शुरू नहीं हो सका।
- जोरहाट में आग लगने की घटनाओं को कम करने के लिए गैस उठाव संबंधी समस्याओं और उच्च जीओआर कूपों को बंद करने के कारण कम उत्पादन।
- राजमुंदरी परिसंपत्ति में टीएचपी में कमी और पसारलापुडी , तातिपाका और अन्य छोटे क्षेत्रों (केशवदासपालम , गोपावरम, लक्ष्मणस्वरम आदि) से पानी की कटौती में वृद्धि के कारण गिरावट।

**2.2** नामांकन ब्लॉकों में ओआईएल (ऑयल इण्डिया लि.) द्वारा प्राकृतिक गैस का उत्पादन अगस्त, 2025 के दौरान 265.88 एमएमएससीएम था जो चालू वर्ष के माह के लक्ष्य से 15.93% कम है लेकिन पिछले वर्ष के इसी माह के उत्पादन की तुलना में 1.64% कम है। अप्रैल- अगस्त, 2025 के दौरान ओआईएल द्वारा संचयी प्राकृतिक गैस उत्पादन 1332.67 एमएमएससीएम था, जो इस अवधि के लक्ष्य से 13.63% कम है और लेकिन पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए उत्पादन से 0.98% अधिक है। उत्पादन में कमी के कारण निम्नानुसार हैं:

- ड्रिलिंग कूपों/पुराने कूपों से नियोजित योगदान से कम उत्पादन
- मध्य प्रदेश में प्रमुख ग्राहकों द्वारा कम उठाव प्रचालन संबंधी

**2.3** पीएससी/आरएससी/सीवीएम व्यवस्था में निजी/संयुक्त उद्यमों द्वारा अगस्त, 2025 के दौरान प्राकृतिक गैस का उत्पादन 1130.78 एमएमएससीएम था जो माह के लक्ष्य से 2.47% अधिक है लेकिन अगस्त, 2024 के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में 6.23% कम है। अप्रैल- अगस्त, 2025 के दौरान निजी/संयुक्त उद्यमों द्वारा संचयी प्राकृतिक गैस उत्पादन 5679.63 एमएमएससीएम था, जो इस अवधि के लक्ष्य से 4.09% अधिक है किन्तु पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान उत्पादन से 5.62% कम है। उत्पादन में कमी के कारण निम्नानुसार हैं:

- केजी-डाउन-98/2: सीपीपी के कमीशनिंग होने और आर व ए1 एनएजी क्षेत्रों से उत्पादन शुरू होने में देरी। (ओएनजीसी)
- एएपी-ओएन-94/1: ग्राहकों द्वारा कम उठाव। (एचओईसी)
- आरजे-ओएन-90/1: तेल उत्पादन में कमी के कारण संबद्ध प्राकृतिक गैस का कम उत्पादन। (वेदांता)
- सीवाई-ओएनएन-2002/2: 04.08.2025 से टीएनजी#1 से गैस का उठाव नहीं हुआ। (ओएनजीसी)
- रानीगंज पूर्व: नए कूपों की निर्धारित ड्रिलिंग में देरी और मौजूदा कूपों में खुदाई की समस्याओं के कारण कमी। (ईएसएसएआर)

### 3. संसाधित कच्चा तेल (कच्चा तेल थ्रूपुट)

कच्चे तेल का प्रसंस्करण अगस्त, 2025 के दौरान 22323.09 टीएमटी था, जो माह के लक्ष्य से 1.21% अधिक है लेकिन अगस्त, 2024 की तुलना में 3.18% अधिक है। अप्रैल- अगस्त, 2025 के दौरान संसाधित संचयी कच्चा तेल 112955.57


टीएमटी था, जो इस अवधि के लक्ष्य से क्रमशः 1.08% अधिक है, और पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान उत्पादन से 1.70 % अधिक है। अगस्त, 2024 की तुलना में अगस्त, 2025 के दौरान कूड थ्रूपुट और क्षमता उपयोग का रिफाइनरी-वार विवरण अनुलग्नक-III और अनुलग्नक-IV में दिया गया है। अगस्त, 2025 माह के लिए कंपनी-वार कूड थ्रूपुट और पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अप्रैल-अगस्त, 2025 की अवधि के लिए संचयी उत्पादन तालिका- 3 में और माह-वार विवरण चित्र-3 में दर्शाया गया है।

तालिका 3: संसाधित कच्चा तेल (कूड थ्रूपुट) (टीएमटी में)

| तेल कंपनी          | लक्ष्य                     | अगस्त (माह) |           |          |                           | अप्रैल- अगस्त (संचयी) |           |           |                           |
|--------------------|----------------------------|-------------|-----------|----------|---------------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                    | 2025-26<br>(अप्रैल-मार्च)* | 2025-26     |           | 2024-25  | पिछले वर्ष की तुलना में % | 2025-26               |           | 2024 -25  | पिछले वर्ष की तुलना में % |
|                    |                            | लक्ष्य *    | उत्पादन * | उत्पादन  |                           | लक्ष्य *              | उत्पादन * | उत्पादन   |                           |
| सीपीएसई            | 170665.81                  | 13839.00    | 13991.17  | 13382.84 | 4.55                      | 70434.71              | 71775.05  | 69695.14  | 2.98                      |
| आईओसीएल            | 74099.48                   | 6141.24     | 5780.90   | 5590.87  | 3.40                      | 30840.80              | 30648.69  | 29615.26  | 3.49                      |
| बीपीसीएल           | 40400.08                   | 3209.00     | 3189.98   | 3398.96  | -6.15                     | 16902.05              | 17249.51  | 17176.02  | 0.43                      |
| एचपीसीएल           | 25000.38                   | 2113.70     | 2221.22   | 1993.86  | 11.40                     | 10352.20              | 11120.19  | 9932.81   | 11.95                     |
| सीपीसीएल           | 11000.00                   | 652.00      | 1060.36   | 680.63   | 55.79                     | 4556.00               | 4997.95   | 4390.61   | 13.83                     |
| एनआरएल             | 3100.78                    | 242.36      | 248.01    | 216.24   | 14.69                     | 1207.86               | 1306.48   | 1198.03   | 9.05                      |
| एमआरपीएल           | 17000.00                   | 1475.00     | 1484.09   | 1496.51  | -0.83                     | 6550.00               | 6421.92   | 7354.40   | -12.68                    |
| ओएनजीसी            | 65.10                      | 5.70        | 6.61      | 5.79     | 14.23                     | 25.80                 | 30.32     | 28.01     | 8.23                      |
| निजी/संयुक्त उद्यम | 97394.11                   | 8216.52     | 8331.92   | 8252.25  | 0.97                      | 41316.49              | 41180.53  | 41370.83  | -0.46                     |
| एचएमईएल            | 13044.81                   | 1098.98     | 1056.99   | 1098.98  | -3.82                     | 5480.34               | 5205.81   | 5480.34   | -5.01                     |
| आरआईएल             | 66181.58                   | 5400.39     | 5868.53   | 5400.39  | 8.67                      | 27349.37              | 27741.42  | 27349.35  | 1.43                      |
| एनईएल              | 18167.72                   | 1717.15     | 1406.40   | 1752.88  | -19.77                    | 8486.78               | 8233.30   | 8541.14   | -3.60                     |
| कुल                | 268059.93                  | 22055.52    | 22323.09  | 21635.09 | 3.18                      | 111751.20             | 112955.57 | 111065.97 | 1.70                      |

नोट: पूर्णांकन के कारण योग का मिलान नहीं हो सकता है। \* अंतिम

चित्र 3: प्रसंस्कृत कच्चा तेल (कूड थ्रूपुट)



**3.1 सीपीएसई रिफाइनरियों का संसाधित कच्चा तेल** अगस्त, 2025 के दौरान 13991.17 टीएमटी था जो माह के लक्ष्य से 1.10% अधिक है किन्तु जो अगस्त 2024 के उत्पादन की तुलना में 4.55% अधिक है। अप्रैल- अगस्त, 2025 के दौरान संचयी कच्चे तेल का थ्रूपुट 71775.05 टीएमटी था जो अवधि के लिए लक्ष्य से क्रमशः 1.90% अधिक है और पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान उत्पादन से 2.98% अधिक है।

**3.2 निजी और संयुक्त उद्यमों की रिफाइनरियों का संसाधित कच्चा तेल** अगस्त, 2025 के दौरान 8331.92 टीएमटी था जो माह के लक्ष्य से 1.40% अधिक है, और अगस्त, 2024 के उत्पादन से 0.97% अधिक है। अप्रैल- अगस्त, 2025 के दौरान संचयी कच्चे तेल का थ्रूपुट 41180.53 टीएमटी था, जो इस अवधि के लक्ष्य से और पिछले वर्ष की इसी अवधि के उत्पादन से क्रमशः 0.33% और 0.46% कम है

#### 4. पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन


**पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन** अगस्त, 2025 के दौरान 23366.78 टीएमटी था, जो माह के लक्ष्य से 1.49% अधिक और अगस्त, 2024 के उत्पादन से 3.00% अधिक है। अप्रैल- अगस्त, 2025 के दौरान संचयी उत्पादन 117406.11 टीएमटी था, जो अवधि के उत्पादन लक्ष्य और पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान उत्पादन से क्रमशः 0.26% और 0.32% अधिक है। पेट्रोलियम उत्पादों का इकाई-वार उत्पादन **अनुलग्नक-V** में दिया गया है। अगस्त, 2025 माह के लिए कंपनी-वार उत्पादन और पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अप्रैल- अगस्त, 2025 के लिए संचयी उत्पादन तालिका-4 में और माह-वार उत्पादन चित्र-4 में दिया गया है।

तालिका 4: पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन(टीएमटी)

| तेल कंपनी          | लक्ष्य    | अगस्त (माह) |          |          |                               | अप्रैल- अगस्त (संचयी) |           |           |                               |
|--------------------|-----------|-------------|----------|----------|-------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
|                    |           | 2025-26     |          | 2024-25  | पिछले वर्ष की तुलना में अंतर% | 2025-26               |           | 2024-25   | पिछले वर्ष की तुलना में अंतर% |
|                    |           | लक्ष्य *    | उत्पादन* | उत्पादन  |                               | लक्ष्य *              | उत्पादन*  | उत्पादन   |                               |
| सीपीएसई            | 161453.11 | 13063.39    | 13228.53 | 12660.64 | 4.49                          | 66768.12              | 67872.64  | 66212.21  | 2.51                          |
| आईओसीएल            | 71162.14  | 5883.82     | 5447.05  | 5258.63  | 3.58                          | 29685.20              | 29354.48  | 28713.98  | 2.23                          |
| बीपीसीएल           | 38236.20  | 3030.90     | 3029.84  | 3261.90  | -7.11                         | 15987.30              | 16218.94  | 16128.20  | 0.56                          |
| एचपीसीएल           | 22929.98  | 1940.36     | 2117.67  | 1918.69  | 10.37                         | 9543.16               | 10279.49  | 9295.04   | 10.59                         |
| सीपीसीएल           | 10442.40  | 608.90      | 1013.53  | 637.75   | 58.92                         | 4323.30               | 4883.44   | 4212.17   | 15.94                         |
| एनआरएल             | 3074.98   | 240.32      | 251.64   | 222.18   | 13.26                         | 1197.77               | 1298.22   | 1192.74   | 8.84                          |
| एमआरपीएल           | 15545.30  | 1353.60     | 1362.32  | 1355.99  | 0.47                          | 6006.70               | 5808.34   | 6643.57   | -12.57                        |
| ओएनजीसी            | 62.10     | 5.50        | 6.48     | 5.51     | 17.67                         | 24.70                 | 29.74     | 26.51     | 12.20                         |
| निजी/संयुक्त उद्यम | 116856.77 | 9758.05     | 9827.31  | 9747.65  | 0.82                          | 49382.54              | 48112.51  | 49385.62  | -2.58                         |
| एचएमईएल            | 12741.96  | 976.63      | 1041.58  | 976.63   | 6.65                          | 5298.96               | 4869.32   | 5298.97   | -8.11                         |
| आरआईएल             | 86795.62  | 7154.46     | 7360.36  | 7154.46  | 2.88                          | 35970.14              | 35195.65  | 35970.14  | -2.15                         |
| एनईएल              | 17319.19  | 1626.96     | 1425.37  | 1616.56  | -11.83                        | 8113.44               | 8047.55   | 8116.52   | -0.85                         |
| कुल रिफाइनरी       | 278309.87 | 22821.44    | 23055.84 | 22408.29 | 2.89                          | 116150.66             | 115985.15 | 115597.83 | 0.34                          |
| फ्रैक्श8नेटर्स     | 2291.61   | 202.38      | 310.93   | 278.75   | 11.55                         | 949.02                | 1420.96   | 1431.13   | -0.71                         |
| कुल                | 280601.48 | 23023.82    | 23366.78 | 22687.04 | 3.00                          | 117099.68             | 117406.11 | 117028.96 | 0.32                          |

नोट: पूर्णांकन के कारण योग का मिलान नहीं हो सकता है। \*: अनंतिम

चित्र 4: पेट्रोलियम उत्पादों का माह-वाररिफाइनरी उत्पादन



4.1 तेल रिफाइनरियों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन अगस्त, 2025 के दौरान 23055.84 टीएमटी था, जो माह के लक्ष्य की तुलना में 1.03% अधिक है और अगस्त, 2024 के उत्पादन की तुलना में 2.89% अधिक है। अप्रैल- अगस्त, 2025 के दौरान संचयी उत्पादन 115985.15 टीएमटी था, जो इस अवधि के लक्ष्य और पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान उत्पादन से क्रमशः 0.14% कम और 0.34% अधिक है।

**4.2 फ्रैक्शनेटरों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन अगस्त, 2025 के दौरान 310.93 टीएमटी था जो माह के लक्ष्य की तुलना में 53.64% अधिक है और अगस्त, 2024 के उत्पादन की तुलना में 11.54 % अधिक है। अप्रैल- अगस्त, 2025 के दौरान संचयी उत्पादन 1420.96 टीएमटी था, जो इस अवधि के लक्ष्य और पिछले वर्ष की इसी अवधि के उत्पादन से क्रमशः 49.73% अधिक और 0.71% कम है।**

\*\*\*\*\*

**दिनांक 15-09-2025 को रिपोर्ट (एमपीआर) परियोजना पोर्टल से एपीआई के माध्यम से तैयार किया जाता है**

माह अगस्त, 2025 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन और अप्रैल-अगस्त 2024-2025 की तुलना में अप्रैल-अगस्त 2025-2026 की अवधि के लिए संचयी उत्पादन

(आंकड़े हजार मीट्रिक टन में)

| उपक्रम/ इकाई/ राज्य का नाम | माह के दौरान लक्ष्य उत्पादन | उल्लिखित अवधि के दौरान उत्पादन |                            |                              | संचयी उत्पादन                        |                                         |                                                       | पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि-कमी |                | लक्ष्य उत्पादन की तुलना में समीक्षाधीन माह के दौरान % वृद्धि- कमी |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
|                            |                             |                                |                            |                              | (अप्रैल-अगस्त)                       |                                         |                                                       |                                      |                |                                                                   |
|                            |                             | समीक्षाधीन माह *               | पिछले वर्ष का तदनुसूची माह | वर्तमान वर्ष का पूर्व माह ** | वर्तमान वर्ष के दौरान लक्ष्य उत्पादन | वर्तमान वर्ष के दौरान वास्तविक उत्पादन* | पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि के दौरान वास्तविक उत्पादन | समीक्षाधीन माह के दौरान              | अवधि के अंत तक |                                                                   |
| (1)                        | (2)                         | (3)                            | (4)                        | (5)                          | (6)                                  | (7)                                     | (8)                                                   | (9)                                  | (10)           | (11)                                                              |
| 1.ओएनजीसी                  | 1679.09                     | 1511.27                        | 1569.71                    | 1527.61                      | 8211.00                              | 7550.44                                 | 7857.23                                               | -3.72                                | -3.90          | -9.99                                                             |
| अभितटीय                    | 550.23                      | 499.96                         | 506.90                     | 502.46                       | 2673.46                              | 2495.07                                 | 2526.65                                               | -1.37                                | -1.25          | -9.14                                                             |
| आंध्र प्रदेश               | 20.95                       | 17.91                          | 19.30                      | 18.69                        | 103.52                               | 96.44                                   | 92.78                                                 | -7.20                                | 3.94           | -14.51                                                            |
| असम                        | 98.37                       | 88.71                          | 90.47                      | 87.54                        | 484.24                               | 436.38                                  | 439.84                                                | -1.95                                | -0.79          | -9.82                                                             |
| गुजरात                     | 410.71                      | 377.75                         | 379.24                     | 380.13                       | 1988.77                              | 1881.64                                 | 1904.48                                               | -0.39                                | -1.20          | -8.03                                                             |
| तमिलनाडु                   | 20.00                       | 15.48                          | 17.79                      | 15.94                        | 96.00                                | 80.00                                   | 88.97                                                 | -12.98                               | -10.08         | -22.60                                                            |
| त्रिपुरा                   | 0.20                        | 0.11                           | 0.11                       | 0.16                         | 0.92                                 | 0.62                                    | 0.57                                                  | 0.00                                 | 8.77           | -45.00                                                            |
| अपतटीय                     | 1128.86                     | 1011.31                        | 1062.81                    | 1025.15                      | 5537.54                              | 5055.36                                 | 5330.58                                               | -4.85                                | -5.16          | -10.41                                                            |
| पूर्वी अपतटीय              | 1.77                        | 0.64                           | 0.90                       | 0.73                         | 4.85                                 | 3.78                                    | 4.26                                                  | -28.89                               | -11.27         | -63.84                                                            |
| पश्चिमी अपतटीय             | 1127.09                     | 1010.67                        | 1061.91                    | 1024.42                      | 5532.69                              | 5051.58                                 | 5326.33                                               | -4.83                                | -5.16          | -10.33                                                            |
| 2. ओआईएल                   | 316.96                      | 287.30                         | 298.43                     | 289.47                       | 1534.63                              | 1425.61                                 | 1462.08                                               | -3.73                                | -2.49          | -9.36                                                             |
| अभितटीय                    | 316.96                      | 287.30                         | 298.43                     | 289.47                       | 1534.63                              | 1425.61                                 | 1462.08                                               | -3.73                                | -2.49          | -9.36                                                             |
| अरुणाचल प्रदेश             | 2.40                        | 2.64                           | 2.72                       | 2.84                         | 12.09                                | 13.72                                   | 14.02                                                 | -2.94                                | -2.14          | 10.00                                                             |
| असम                        | 310.63                      | 281.15                         | 293.19                     | 283.51                       | 1505.41                              | 1395.93                                 | 1435.62                                               | -4.11                                | -2.76          | -9.49                                                             |
| राजस्थान                   | 3.93                        | 3.51                           | 2.52                       | 3.12                         | 17.13                                | 15.95                                   | 12.44                                                 | 39.29                                | 28.22          | -10.69                                                            |
| 3.निजी/ जेवीसी             | 664.40                      | 575.93                         | 535.59                     | 581.99                       | 3313.02                              | 2912.90                                 | 2771.60                                               | 7.53                                 | 5.10           | -13.32                                                            |
| अभितटीय                    | 408.37                      | 327.07                         | 345.72                     | 327.95                       | 2015.30                              | 1634.71                                 | 1811.77                                               | -5.40                                | -9.77          | -19.91                                                            |
| आंध्र प्रदेश               | 4.71                        | 4.49                           | 6.16                       | 4.03                         | 24.38                                | 19.95                                   | 27.02                                                 | -27.11                               | -26.17         | -4.67                                                             |
| अरुणाचल प्रदेश             | 3.08                        | 2.93                           | 1.49                       | 2.72                         | 12.07                                | 11.40                                   | 8.01                                                  | 95.97                                | 42.32          | -4.87                                                             |
| असम                        | 3.69                        | 2.53                           | 1.82                       | 2.13                         | 17.55                                | 12.23                                   | 9.92                                                  | 39.01                                | 23.29          | -31.44                                                            |
| गुजरात                     | 65.73                       | 62.85                          | 43.97                      | 60.64                        | 318.67                               | 304.68                                  | 216.79                                                | 42.94                                | 40.54          | -4.38                                                             |
| राजस्थान                   | 326.27                      | 249.09                         | 286.86                     | 253.24                       | 1618.16                              | 1260.73                                 | 1522.96                                               | -13.17                               | -17.22         | -23.66                                                            |
| तमिलनाडु                   | 4.89                        | 5.19                           | 5.41                       | 5.19                         | 24.47                                | 25.71                                   | 27.08                                                 | -4.07                                | -5.06          | 6.13                                                              |
| अपतटीय                     | 256.03                      | 248.87                         | 189.87                     | 254.04                       | 1297.72                              | 1278.19                                 | 959.83                                                | 31.07                                | 33.17          | -2.80                                                             |
| पूर्वी अपतटीय              | 234.88                      | 227.81                         | 175.97                     | 232.33                       | 1183.85                              | 1168.85                                 | 879.17                                                | 29.46                                | 32.95          | -3.01                                                             |
| गुजरात अपतटीय              | 18.66                       | 19.68                          | 13.13                      | 21.68                        | 100.22                               | 101.63                                  | 67.65                                                 | 49.89                                | 50.23          | 5.47                                                              |
| पश्चिमी अपतटीय             | 2.49                        | 1.38                           | 0.77                       | 0.03                         | 13.65                                | 7.71                                    | 13.01                                                 | 77.92                                | -40.74         | -44.58                                                            |
| कुल योग (1+2+3)            | 2660.44                     | 2374.50                        | 2403.73                    | 2399.07                      | 13058.65                             | 11888.95                                | 12090.92                                              | -1.22                                | -1.67          | -10.75                                                            |
| अभितटीय                    | 1275.55                     | 1114.32                        | 1151.05                    | 1119.88                      | 6223.39                              | 5555.39                                 | 5800.50                                               | -3.19                                | -4.23          | -12.64                                                            |
| अपतटीय                     | 1384.89                     | 1260.17                        | 1252.68                    | 1279.19                      | 6835.26                              | 6333.56                                 | 6290.42                                               | 0.60                                 | 0.69           | -9.01                                                             |

नोट: आंकड़ों को पूर्णांकित किए जाने के कारण योग का मिलान नहीं हो सकता है। \*अनंतिम \*\*संशोधित #: डाटा प्रतीक्षित

कमी के कारणों को नोट में दर्शाया गया है। ^: मौजूदा कॉन्फिगरेशन के साथ आवश्यक उत्पाद विनिर्देशों को पूरकरने के कारण सीपीसीएल और सीबीआर रिफाइनरी बंद है।

स्रोत: तेल कंपनियां

| अनुलग्नक-II (पैरा-2)                                                                                                                         |                              |                                |                            |                             |                                      |                                         |                                                       |                                      |                |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| माह अगस्त, 2025 के दौरान प्राकृतिक गैस का उत्पादन और अप्रैल-अगस्त 2024-2025 की तुलना में अप्रैल-अगस्त 2025-2026 की अवधि के लिए संचयी उत्पादन |                              |                                |                            |                             |                                      |                                         |                                                       |                                      |                |                                                                   |
| (आंकड़े मिलियन घन मीटर में)                                                                                                                  |                              |                                |                            |                             |                                      |                                         |                                                       |                                      |                |                                                                   |
| उपक्रम/ इकाई/ राज्य का नाम                                                                                                                   | माह के दौरान लक्ष्य उत्पादन* | उल्लिखित अवधि के दौरान उत्पादन |                            |                             | संचयी उत्पादन                        |                                         |                                                       | पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि-कमी |                | लक्ष्य उत्पादन की तुलना में समीक्षाधीन माह के दौरान % वृद्धि- कमी |
|                                                                                                                                              |                              | समीक्षाधीन माह *               | पिछले वर्ष का तदनुसूची माह | वर्तमान वर्ष का पूर्व माह** | वर्तमान वर्ष के दौरान लक्ष्य उत्पादन | वर्तमान वर्ष के दौरान वास्तविक उत्पादन* | पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि के दौरान वास्तविक उत्पादन | समीक्षाधीन माह के दौरान              | अवधि के अंत तक |                                                                   |
| (1)                                                                                                                                          | (2)                          | (3)                            | (4)                        | (5)                         | (6)                                  | (7)                                     | (8)                                                   | (9)                                  | (10)           | (11)                                                              |
| 1. ओएनजीसी                                                                                                                                   | 1654.95                      | 1569.07                        | 1572.02                    | 1560.31                     | 8102.17                              | 7697.05                                 | 7840.16                                               | -0.19                                | -1.83          | -5.19                                                             |
| अभितदीय                                                                                                                                      | 388.02                       | 338.27                         | 345.60                     | 335.55                      | 1891.37                              | 1691.36                                 | 1729.73                                               | -2.12                                | -2.22          | -12.82                                                            |
| आंध्र प्रदेश                                                                                                                                 | 66.26                        | 62.42                          | 63.43                      | 61.49                       | 323.21                               | 313.07                                  | 309.65                                                | -1.59                                | 1.10           | -5.80                                                             |
| असम                                                                                                                                          | 36.20                        | 30.23                          | 29.09                      | 28.95                       | 178.21                               | 142.64                                  | 146.45                                                | 3.92                                 | -2.60          | -16.49                                                            |
| गुजरात                                                                                                                                       | 69.26                        | 70.88                          | 66.40                      | 69.85                       | 342.83                               | 349.98                                  | 329.56                                                | 6.75                                 | 6.20           | 2.34                                                              |
| राजस्थान                                                                                                                                     | 1.50                         | 0.00                           | 0.00                       | 0.00                        | 5.50                                 | 0.00                                    | 0.00                                                  | -                                    | -              | -                                                                 |
| तमिलनाडु                                                                                                                                     | 84.02                        | 73.17                          | 85.29                      | 80.81                       | 415.08                               | 385.89                                  | 426.68                                                | -14.22                               | -9.56          | -12.91                                                            |
| त्रिपुरा                                                                                                                                     | 130.77                       | 101.57                         | 101.38                     | 94.45                       | 626.55                               | 499.78                                  | 517.39                                                | 0.19                                 | -3.40          | -22.33                                                            |
| अपतदीय                                                                                                                                       | 1266.93                      | 1230.80                        | 1226.41                    | 1224.76                     | 6210.80                              | 6005.69                                 | 6110.43                                               | 0.36                                 | -1.71          | -2.85                                                             |
| पूर्वी अपतदीय                                                                                                                                | 19.78                        | 15.66                          | 20.98                      | 15.70                       | 92.48                                | 82.50                                   | 106.54                                                | -25.36                               | -22.56         | -20.83                                                            |
| पश्चिमी अपतदीय                                                                                                                               | 1247.15                      | 1215.14                        | 1205.44                    | 1209.06                     | 6118.31                              | 5923.20                                 | 6003.88                                               | 0.80                                 | -1.34          | -2.57                                                             |
| 2. ओआईएल                                                                                                                                     | 316.26                       | 265.88                         | 270.31                     | 264.38                      | 1543.01                              | 1332.67                                 | 1319.71                                               | -1.64                                | 0.98           | -15.93                                                            |
| अभितदीय                                                                                                                                      | 316.26                       | 265.88                         | 270.31                     | 264.38                      | 1543.01                              | 1332.67                                 | 1319.71                                               | -1.64                                | 0.98           | -15.93                                                            |
| अरुणाचल प्रदेश                                                                                                                               | 4.71                         | 3.35                           | 3.61                       | 3.95                        | 21.44                                | 17.90                                   | 15.07                                                 | -7.20                                | 18.78          | -28.87                                                            |
| असम                                                                                                                                          | 286.69                       | 241.57                         | 253.70                     | 237.53                      | 1398.88                              | 1208.88                                 | 1246.80                                               | -4.78                                | -3.04          | -15.74                                                            |
| राजस्थान                                                                                                                                     | 24.86                        | 20.97                          | 12.99                      | 22.90                       | 122.69                               | 105.89                                  | 57.85                                                 | 61.43                                | 83.04          | -15.65                                                            |
| 3. निजी / जेवीसी                                                                                                                             | 1103.56                      | 1130.78                        | 1205.91                    | 1137.46                     | 5456.49                              | 5679.63                                 | 6017.67                                               | -6.23                                | -5.62          | 2.47                                                              |
| अभितदीय                                                                                                                                      | 172.42                       | 150.62                         | 188.16                     | 150.50                      | 860.03                               | 782.52                                  | 942.67                                                | -19.95                               | -16.99         | -12.64                                                            |
| आंध्र प्रदेश                                                                                                                                 | 1.66                         | 1.41                           | 1.78                       | 1.15                        | 8.59                                 | 5.75                                    | 8.34                                                  | -21.23                               | -31.06         | -15.06                                                            |
| अरुणाचल प्रदेश                                                                                                                               | 0.58                         | 0.50                           | 0.39                       | 0.41                        | 2.28                                 | 2.10                                    | 1.94                                                  | 28.21                                | 8.25           | -13.79                                                            |
| असम                                                                                                                                          | 31.30                        | 22.72                          | 22.97                      | 20.60                       | 152.32                               | 121.86                                  | 117.41                                                | -1.09                                | 3.79           | -27.41                                                            |
| गुजरात                                                                                                                                       | 17.92                        | 17.16                          | 20.53                      | 15.84                       | 93.11                                | 85.13                                   | 100.01                                                | -16.42                               | -14.88         | -4.24                                                             |
| राजस्थान                                                                                                                                     | 113.20                       | 106.32                         | 139.95                     | 108.73                      | 578.50                               | 550.38                                  | 702.68                                                | -24.03                               | -21.67         | -6.08                                                             |
| तमिलनाडु                                                                                                                                     | 7.75                         | 2.51                           | 2.53                       | 3.77                        | 25.24                                | 17.30                                   | 12.29                                                 | -0.79                                | 40.76          | -67.61                                                            |
| सीबीएम                                                                                                                                       | 81.67                        | 70.34                          | 61.06                      | 70.20                       | 386.88                               | 344.10                                  | 300.19                                                | 15.19                                | 14.63          | -13.86                                                            |
| झारखंड (सीबीएम)                                                                                                                              | 10.68                        | 8.08                           | 0.36                       | 7.95                        | 46.95                                | 36.28                                   | 9.77                                                  | -                                    | -              | -24.34                                                            |
| मध्य प्रदेश (सीबीएम)                                                                                                                         | 29.76                        | 26.39                          | 25.27                      | 26.71                       | 144.45                               | 133.46                                  | 116.88                                                | 4.39                                 | 14.19          | -11.32                                                            |
| पश्चिम बंगाल (सीबीएम)                                                                                                                        | 41.23                        | 35.88                          | 35.43                      | 35.54                       | 195.48                               | 174.36                                  | 173.53                                                | 1.27                                 | 0.48           | -12.98                                                            |
| अपतदीय                                                                                                                                       | 849.47                       | 909.83                         | 956.70                     | 916.76                      | 4209.58                              | 4553.01                                 | 4774.81                                               | -4.90                                | -4.65          | 7.11                                                              |
| पूर्वी अपतदीय                                                                                                                                | 833.18                       | 892.33                         | 942.07                     | 900.88                      | 4124.85                              | 4464.94                                 | 4688.59                                               | -5.28                                | -4.77          | 7.10                                                              |
| गुजरात अपतदीय                                                                                                                                | 10.84                        | 16.02                          | 13.79                      | 15.86                       | 56.72                                | 75.19                                   | 69.25                                                 | 16.17                                | 8.58           | 47.79                                                             |
| पश्चिमी अपतदीय                                                                                                                               | 5.45                         | 1.48                           | 0.84                       | 0.02                        | 28.01                                | 12.89                                   | 16.98                                                 | 76.19                                | -24.09         | -72.84                                                            |
| कल योग (1+2+3)                                                                                                                               | 3074.77                      | 2965.73                        | 3048.24                    | 2962.15                     | 15101.67                             | 14709.35                                | 15177.54                                              | -2.71                                | -3.08          | -3.54                                                             |
| सीबीएम                                                                                                                                       | 81.67                        | 70.34                          | 61.06                      | 70.20                       | 386.88                               | 344.10                                  | 300.19                                                | 15.19                                | 14.63          | -13.86                                                            |
| अभितदीय                                                                                                                                      | 876.70                       | 754.77                         | 804.06                     | 750.43                      | 4294.41                              | 3806.54                                 | 3992.11                                               | -6.13                                | -4.65          | -13.90                                                            |
| अपतदीय                                                                                                                                       | 2116.40                      | 2140.62                        | 2183.11                    | 2141.52                     | 10420.38                             | 10558.70                                | 10885.24                                              | -1.95                                | -3.00          | 1.14                                                              |

नोट: आंकड़ों को पूर्णांकित किए जाने के कारण योग का मिलान नहीं हो सकता है। \*अंतिम, \*\*:संशोधित \*\* #: डाटा प्रतीक्षित

कमी के कारणों को नोट में दर्शाया गया है।<sup>1</sup> मौजूदा कॉन्फिगरेशन के साथ आवश्यक उत्पाद विनिर्देशों को पूरा करने के कारण सीपीसीएल और सीबीआर रिफाइनरी बंद है।

स्रोत: तेल कंपनियां

माह अगस्त, 2025 के दौरान संसाधित कच्चा तेल और अप्रैल-अगस्त, 2024 -2025 की तुलना में अप्रैल-अगस्त, 2025-2026 की अवधि के लिए संचयी संसाधन

| उपक्रम/ इकाई का नाम                 | माह के दौरान लक्ष्य उत्पादन | उल्लिखित अवधि के दौरान उत्पादन |                            |                              | संचयी उत्पादन                        |                                         |                                                       | पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि-कमी |                | (आंकड़े हजार मीट्रिक टन में)                                      |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                     |                             | समीक्षाधीन माह *               | पिछले वर्ष का तदनुसूची माह | वर्तमान वर्ष का पूर्व माह ** | वर्तमान वर्ष के दौरान लक्ष्य उत्पादन | वर्तमान वर्ष के दौरान वास्तविक उत्पादन* | पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि के दौरान वास्तविक उत्पादन | समीक्षाधीन माह के दौरान              | अवधि के अंत तक | लक्ष्य उत्पादन की तुलना में समीक्षाधीन माह के दौरान % वृद्धि- कमी |
|                                     |                             |                                |                            |                              |                                      |                                         |                                                       |                                      |                |                                                                   |
| (1)                                 | (2)                         | (3)                            | (4)                        | (5)                          | (6)                                  | (7)                                     | (8)                                                   | (9)                                  | (10)           | (11)                                                              |
| क. सीपीएसईज की रिफाइनरियां          | 13839.00                    | 13991.17                       | 13382.84                   | 14806.44                     | 70434.71                             | 71775.05                                | 69695.14                                              | 4.55                                 | 2.98           | 1.10                                                              |
| 1. आईओसीएल, बरौनी                   | 586.93                      | 483.91                         | 586.96                     | 565.85                       | 2961                                 | 2653.31                                 | 2832.89                                               | -17.56                               | -6.34          | -17.55                                                            |
| 2. आईओसीएल, बोंगाईगांव              | 258.19                      | 261.91                         | 236.85                     | 266.38                       | 1274.32                              | 1271.34                                 | 1011.75                                               | 10.58                                | 25.66          | 1.44                                                              |
| 3. आईओसीएल, डिम्बोगई                | 65.99                       | 63.69                          | 68.37                      | 66.61                        | 291.82                               | 279.17                                  | 319.16                                                | -6.85                                | -12.53         | -3.48                                                             |
| 4. आईओसीएल, गुजरात                  | 1225.20                     | 691.54                         | 1342.54                    | 793.22                       | 5059.96                              | 4492.14                                 | 6611.53                                               | -48.49                               | -32.06         | -43.56                                                            |
| 5. आईओसीएल, गुवाहाटी                | 111.61                      | 112.05                         | 101.2                      | 112.20                       | 531.94                               | 542.40                                  | 533.14                                                | 10.73                                | 1.74           | 0.39                                                              |
| 6. आईओसीएल, हल्दिया                 | 570.63                      | 734.69                         | 283.86                     | 750.42                       | 3535.53                              | 3676.01                                 | 2969.12                                               | 158.83                               | 23.81          | 28.75                                                             |
| 7. आईओसीएल, मथुरा                   | 682.00                      | 724.11                         | 589.31                     | 837.26                       | 3994.5                               | 4113.55                                 | 3822.26                                               | 22.88                                | 7.62           | 6.17                                                              |
| 8. आईओसीएल, पानीपत                  | 1281.02                     | 1291.62                        | 1151.37                    | 1374.51                      | 6322.46                              | 6617.39                                 | 6243.99                                               | 12.18                                | 5.98           | 0.83                                                              |
| 9. आईओसीएल, पारादीप                 | 1359.66                     | 1417.39                        | 1230.42                    | 1418.37                      | 6869.28                              | 7003.38                                 | 5271.42                                               | 15.20                                | 32.86          | 4.25                                                              |
| योग आईओसीएल                         | 6141.24                     | 5780.9                         | 5590.87                    | 6184.81                      | 30840.8                              | 30648.69                                | 29615.26                                              | 3.40                                 | 3.49           | -5.87                                                             |
| 10. बीपीसीएल, बीना                  | 410.00                      | 245.13                         | 531.94                     | 681.15                       | 3045.05                              | 2904.28                                 | 3216.80                                               | -53.92                               | -9.72          | -40.21                                                            |
| 11. बीपीसीएल, कोच्चि                | 1450.00                     | 1553.48                        | 1506.63                    | 1575.09                      | 7400                                 | 7627.16                                 | 7471.63                                               | 3.11                                 | 2.08           | 7.14                                                              |
| 12. बीपीसीएल, मुंबई                 | 1349.00                     | 1391.37                        | 1360.38                    | 1386.15                      | 6457                                 | 6718.07                                 | 6487.59                                               | 2.28                                 | 3.55           | 3.14                                                              |
| योग बीपीसीएल                        | 3209.00                     | 3189.98                        | 3398.96                    | 3642.39                      | 16902.05                             | 17249.51                                | 17176.02                                              | -6.15                                | 0.43           | -0.59                                                             |
| 13.एचपीसीएल, मुंबई                  | 830.00                      | 881.75                         | 741.85                     | 855.29                       | 4134                                 | 4244.15                                 | 3827.83                                               | 18.86                                | 10.88          | 6.24                                                              |
| 14. एचपीसीएल, विशाख                 | 1283.70                     | 1339.47                        | 1252                       | 1381.06                      | 6218.2                               | 6876.04                                 | 6104.97                                               | 6.99                                 | 12.63          | 4.34                                                              |
| योग एचपीसीएल                        | 2113.70                     | 2221.22                        | 1993.86                    | 2236.35                      | 10352.2                              | 11120.19                                | 9932.81                                               | 11.40                                | 11.95          | 5.09                                                              |
| 15. सीपीसीएल, मनाली                 | 652.00                      | 1060.36                        | 680.63                     | 956.57                       | 4556                                 | 4997.95                                 | 4390.61                                               | 55.79                                | 13.83          | 62.63                                                             |
| योग सीपीसीएल                        | 652.00                      | 1060.36                        | 680.63                     | 956.57                       | 4556                                 | 4997.95                                 | 4390.61                                               | 55.79                                | 13.83          | 62.63                                                             |
| 16. एनआरएल, नुमालीगढ़               | 242.36                      | 248.01                         | 216.24                     | 259.15                       | 1207.86                              | 1306.48                                 | 1198.03                                               | 14.69                                | 9.05           | 2.33                                                              |
| योग एनआरएल                          | 242.36                      | 248.01                         | 216.24                     | 259.15                       | 1207.86                              | 1306.48                                 | 1198.03                                               | 14.69                                | 9.05           | 2.33                                                              |
| 17.एमआरपीएल, मंगलौर                 | 1475.00                     | 1484.09                        | 1496.51                    | 1520.94                      | 6550                                 | 6421.92                                 | 7354.40                                               | -0.83                                | -12.68         | 0.62                                                              |
| योग एमआरपीएल                        | 1475.00                     | 1484.09                        | 1496.51                    | 1520.94                      | 6550                                 | 6421.92                                 | 7354.40                                               | -0.83                                | -12.68         | 0.62                                                              |
| 18. ओएनजीसी, तातीपाका               | 5.70                        | 6.61                           | 5.79                       | 6.25                         | 25.8                                 | 30.32                                   | 28.01                                                 | 14.23                                | 8.23           | 15.96                                                             |
| योग ओएनजीसी                         | 5.70                        | 6.61                           | 5.79                       | 6.25                         | 25.8                                 | 30.32                                   | 28.01                                                 | 14.23                                | 8.23           | 15.96                                                             |
| ख. निजी व संयुक्त उद्यम रिफाइनरियां | 8216.52                     | 8331.92                        | 8252.25                    | 8411.15                      | 41316.49                             | 41180.53                                | 41370.83                                              | 0.97                                 | -0.46          | 1.40                                                              |
| 1. एचएमईएल, भठिंडा                  | 1098.98                     | 1056.99                        | 1098.98                    | 894.46                       | 5480.34                              | 5205.81                                 | 5480.34                                               | -3.82                                | -5.01          | -3.82                                                             |
| योग एचएमईएल                         | 1098.98                     | 1056.99                        | 1098.98                    | 894.46                       | 5480.34                              | 5205.81                                 | 5480.34                                               | -3.82                                | -5.01          | -3.82                                                             |
| 2. आरआईएल, जामनगर                   | 2921.46                     | 3000.07                        | 2921.46                    | 2995.92                      | 14556.88                             | 13316.88                                | 14556.87                                              | 2.69                                 | -8.52          | 2.69                                                              |
| 3. आरआईएल, एसईजेड                   | 2478.93                     | 2868.46                        | 2478.93                    | 2830.00                      | 12792.49                             | 14424.54                                | 12792.48                                              | 15.71                                | 12.76          | 15.71                                                             |
| योग आरआईएल                          | 5400.39                     | 5868.53                        | 5400.39                    | 5825.92                      | 27349.37                             | 27741.42                                | 27349.35                                              | 8.67                                 | 1.43           | 8.67                                                              |



अगस्त , 2025 माह के दौरान रिफाइनरी-वार क्षमता उपयोग और अप्रैल-अगस्त 2024-2025 की तुलना में अप्रैल-अगस्त 2025-2026 की अवधि के लिए रिफाइनरी-वार संचयी क्षमता उपयोग

(आंकड़े हजार मीट्रिक टन में)

| उपक्रम/इकाई/राज्य का नाम   | अगस्त, 2025             |                     |                           | अगस्त, 2024             |                       |                           | अप्रैल-अगस्त, 2025-2026 |                     |                           | अप्रैल-अगस्त, 2024-25   |                       |                           |
|----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
|                            | यथानुपात स्थापित क्षमता | वास्तविक कूड श्रुपट | स्थापित क्षमता का उपयोग % | यथानुपात स्थापित क्षमता | वास्तविक कूड श्रुपट * | स्थापित क्षमता का उपयोग % | यथानुपात स्थापित क्षमता | वास्तविक कूड श्रुपट | स्थापित क्षमता का उपयोग % | यथानुपात स्थापित क्षमता | वास्तविक कूड श्रुपट * | स्थापित क्षमता का उपयोग % |
| (1)                        | (2)                     | (3)                 | (4)                       | (5)                     | (6)                   | (7)                       | (8)                     | (9)                 | (10)                      | (11)                    | (12)                  | (13)                      |
| क. सीपीएसईज की रिफाइनरियां | 13361.00                | 13991.17            | 104.72                    | 13361.09                | 13382.84              | 100.16                    | 65943.42                | 71775.04            | 108.84                    | 65943.42                | 69695.14              | 105.69                    |
| 1. आईओसीएल, बरौनी          | 509.59                  | 483.91              | 94.96                     | 509.59                  | 586.96                | 115.18                    | 2515.07                 | 2653.31             | 105.50                    | 2515.07                 | 2832.89               | 112.64                    |
| 2. आईओसीएल, बोंगाईगांव     | 229.32                  | 261.91              | 114.21                    | 229.32                  | 236.85                | 103.28                    | 1131.78                 | 1271.34             | 112.33                    | 1131.78                 | 1011.75               | 89.39                     |
| 3. आईओसीएल, डिम्बोर्गई     | 55.21                   | 63.69               | 115.36                    | 55.21                   | 68.37                 | 123.85                    | 272.47                  | 279.17              | 102.46                    | 272.47                  | 319.16                | 117.14                    |
| 4. आईओसीएल, गुजरात         | 1163.56                 | 691.54              | 59.43                     | 1163.56                 | 1342.54               | 115.38                    | 5742.74                 | 4492.14             | 78.22                     | 5742.74                 | 6611.53               | 115.13                    |
| 5. आईओसीएल, गुवाहाटी       | 101.92                  | 112.05              | 109.94                    | 101.92                  | 101.20                | 99.29                     | 503.01                  | 542.40              | 107.83                    | 503.01                  | 533.14                | 105.99                    |
| 6. आईओसीएल, हल्दिया        | 679.45                  | 734.69              | 108.13                    | 679.45                  | 283.86                | 41.78                     | 3353.43                 | 3676.01             | 109.62                    | 3353.43                 | 2969.12               | 88.54                     |
| 7. आईओसीएल, मथुरा          | 679.45                  | 724.11              | 106.57                    | 679.45                  | 589.31                | 86.73                     | 3353.43                 | 4113.55             | 122.67                    | 3353.43                 | 3822.26               | 113.98                    |
| 8. आईओसीएल, पानीपत         | 1273.97                 | 1291.62             | 101.39                    | 1273.97                 | 1151.37               | 90.38                     | 6287.67                 | 6617.39             | 105.24                    | 6287.67                 | 6243.99               | 99.31                     |
| 9. आईओसीएल, पारादीप        | 1273.97                 | 1417.39             | 111.26                    | 1273.97                 | 1230.42               | 96.58                     | 6287.67                 | 7003.38             | 111.38                    | 6287.67                 | 5271.42               | 83.84                     |
| योग आईओसीएल                | 5966.44                 | 5780.90             | 96.89                     | 5966.44                 | 5590.87               | 93.71                     | 29447.26                | 30648.69            | 104.08                    | 29447.26                | 29615.26              | 100.57                    |
| 10. बीपीसीएल, बीना         | 1019.18                 | 1391.37             | 136.52                    | 1019.18                 | 1360.38               | 133.48                    | 5030.14                 | 6718.07             | 133.56                    | 5030.14                 | 6487.60               | 128.97                    |
| 11. बीपीसीएल, कोच्चि       | 662.47                  | 245.12              | 37.00                     | 662.47                  | 531.95                | 80.30                     | 3269.59                 | 2904.28             | 88.83                     | 3269.59                 | 3216.80               | 98.39                     |
| 12. बीपीसीएल, मुंबई        | 1316.44                 | 1553.49             | 118.01                    | 1316.44                 | 1506.63               | 114.45                    | 6497.26                 | 7627.16             | 117.39                    | 6497.26                 | 7471.63               | 115.00                    |
| योग बीपीसीएल               | 2998.09                 | 3189.98             | 106.40                    | 2998.08                 | 3398.96               | 113.37                    | 14796.99                | 17249.51            | 116.57                    | 14796.99                | 17176.03              | 116.08                    |
| 13. एचपीसीएल, मुंबई        | 806.85                  | 881.75              | 109.28                    | 806.85                  | 741.85                | 91.94                     | 3982.19                 | 4244.15             | 106.58                    | 3982.19                 | 3827.83               | 96.12                     |
| 14. एचपीसीएल, विशाख        | 1163.56                 | 1339.47             | 115.12                    | 1163.56                 | 1252.00               | 107.60                    | 5742.74                 | 6876.04             | 119.73                    | 5742.74                 | 6104.97               | 106.31                    |
| योग एचपीसीएल               | 1970.41                 | 2221.22             | 112.73                    | 1970.41                 | 1993.86               | 101.19                    | 9724.93                 | 11120.19            | 114.35                    | 9724.93                 | 9932.81               | 102.14                    |
| 15. सीपीसीएल, मनाली        | 891.78                  | 1060.36             | 118.90                    | 891.78                  | 680.63                | 76.32                     | 4401.37                 | 4997.95             | 113.55                    | 4401.37                 | 4390.61               | 99.76                     |
| योग सीपीसीएल               | 891.78                  | 1060.36             | 118.90                    | 891.78                  | 680.63                | 76.32                     | 4401.37                 | 4997.95             | 113.55                    | 4401.37                 | 4390.61               | 99.76                     |
| 16. एनआरएल, नुमालीगढ़      | 254.79                  | 248.01              | 97.34                     | 254.80                  | 216.24                | 84.87                     | 1257.53                 | 1306.48             | 103.89                    | 1257.53                 | 1198.03               | 95.27                     |
| योग एनआरएल                 | 254.79                  | 248.01              | 97.34                     | 254.80                  | 216.24                | 84.87                     | 1257.53                 | 1306.48             | 103.89                    | 1257.53                 | 1198.03               | 95.27                     |
| 17. एमआरपीएल, मंगलौर       | 1273.97                 | 1484.09             | 116.49                    | 1273.97                 | 1496.51               | 117.47                    | 6287.67                 | 6421.91             | 102.14                    | 6287.67                 | 7354.40               | 116.97                    |
| योग एमआरपीएल               | 1273.97                 | 1484.09             | 116.49                    | 1273.97                 | 1496.51               | 117.47                    | 6287.67                 | 6421.91             | 102.14                    | 6287.67                 | 7354.40               | 116.97                    |
| 18. ओएनजीसी, तातीपाका      | 5.61                    | 6.61                | 117.83                    | 5.61                    | 5.79                  | 103.23                    | 27.67                   | 30.32               | 109.58                    | 27.67                   | 28.01                 | 101.25                    |
| योग ओएनजीसी                | 5.61                    | 6.61                | 117.83                    | 5.61                    | 5.79                  | 103.23                    | 27.67                   | 30.32               | 109.58                    | 27.67                   | 28.01                 | 101.25                    |

|                                            |                 |                 |               |                 |                 |               |                  |                  |               |                  |                  |               |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>ख. निजी व संयुक्त उद्यम रिफाइनरियां</b> | <b>8451.00</b>  | <b>8331.92</b>  | <b>98.59</b>  | <b>8450.69</b>  | <b>8252.25</b>  | <b>97.65</b>  | <b>41708.22</b>  | <b>41180.53</b>  | <b>98.73</b>  | <b>41708.22</b>  | <b>41370.83</b>  | <b>99.19</b>  |
| 1. एचएमईएल, भठिंडा                         | 959.73          | 1056.99         | 110.13        | 959.73          | 1098.98         | 114.51        | 4736.71          | 5205.81          | 109.90        | 4736.71          | 5480.34          | 115.70        |
| <b>योग एचएमईएल</b>                         | <b>959.73</b>   | <b>1056.99</b>  | <b>110.13</b> | <b>959.73</b>   | <b>1098.98</b>  | <b>114.51</b> | <b>4736.71</b>   | <b>5205.81</b>   | <b>109.90</b> | <b>4736.71</b>   | <b>5480.34</b>   | <b>115.70</b> |
| 2. आरआईएल, जामनगर                          | 2802.74         | 3000.07         | 107.04        | 2802.74         | 2921.46         | 104.24        | 13832.88         | 13316.88         | 96.27         | 13832.88         | 14556.87         | 105.23        |
| 3. आरआईएल, एसईजेड                          | 2989.59         | 2868.46         | 95.95         | 2989.59         | 2478.93         | 82.92         | 14755.07         | 14424.54         | 97.76         | 14755.07         | 12792.48         | 86.70         |
| <b>योग आरआईएल</b>                          | <b>5792.33</b>  | <b>5868.53</b>  | <b>101.32</b> | <b>5792.33</b>  | <b>5400.39</b>  | <b>93.23</b>  | <b>28587.95</b>  | <b>27741.42</b>  | <b>97.04</b>  | <b>28587.95</b>  | <b>27349.35</b>  | <b>95.67</b>  |
| 4. एनईएल, वादीनार                          | 1698.63         | 1406.40         | 82.80         | 1698.63         | 1752.88         | 103.19        | 8383.56          | 8233.30          | 98.21         | 8383.56          | 8541.14          | 101.88        |
| <b>योग एनईएल</b>                           | <b>1698.63</b>  | <b>1406.40</b>  | <b>82.80</b>  | <b>1698.63</b>  | <b>1752.88</b>  | <b>103.19</b> | <b>8383.56</b>   | <b>8233.30</b>   | <b>98.21</b>  | <b>8383.56</b>   | <b>8541.14</b>   | <b>101.88</b> |
| <b>योग (क+ख)</b>                           | <b>21812.00</b> | <b>22323.09</b> | <b>102.34</b> | <b>21811.77</b> | <b>21635.09</b> | <b>99.19</b>  | <b>107651.64</b> | <b>112955.57</b> | <b>104.93</b> | <b>107651.64</b> | <b>111065.97</b> | <b>103.17</b> |

**नोट:** आंकड़ों को पूर्णांकित किए जाने के कारण योग का मिलान नहीं हो सकता है।      \*:अंतिम      \*\*:संशोधित

**कमी के कारणों को नोट में दर्शाया गया है †:** मौजूदा कॉन्फिगरेशन के साथ आवश्यक उत्पाद विनिर्देशों को पूरने की सीमा के चलते सीपीसीएल और सीबीआर रिफाइनरी बंद है।

स्रोत: तेल कंपनियां

माह अगस्त, 2025 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन और अप्रैल-अगस्त, 2024-2025 की तुलना में अप्रैल-अगस्त, 2025-2026 की अवधि के लिए संचयी उत्पादन

(आंकड़े हजार मीट्रिक टन में)

| उपक्रम/ इकाई का नाम               | माह के दौरान लक्ष्य उत्पादन | उल्लिखित अवधि के दौरान उत्पादन |                            |                              | संचयी उत्पादन                          |                                         |                                               | पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि-कमी |                | लक्ष्य उत्पादन की तुलना में समीक्षाधीन माह के दौरान % वृद्धि-कमी |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
|                                   |                             | समीक्षाधीन माह *               | पिछले वर्ष का तदनुसूची माह | वर्तमान वर्ष का पूर्व माह ** | वर्तमान वर्ष के दौरान लक्ष्य उत्पादन** | वर्तमान वर्ष के दौरान वास्तविक उत्पादन* | पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि के दौरान वास्तविक | समीक्षाधीन माह के दौरान              | अवधि के अंत तक |                                                                  |
| (1)                               | (2)                         | (3)                            | (4)                        | (5)                          | (6)                                    | (7)                                     | (8)                                           | (9)                                  | (10)           | (11)                                                             |
| <b>क. सीपीएसईज की रिफाइनरियां</b> | <b>13063.39</b>             | <b>13228.53</b>                | <b>12660.64</b>            | <b>13929.91</b>              | <b>66768.12</b>                        | <b>67872.64</b>                         | <b>66212.21</b>                               | <b>4.49</b>                          | <b>2.51</b>    | <b>1.26</b>                                                      |
| 1. आईओसीएल, बरोनी                 | 558.86                      | 440.92                         | 538.91                     | 538.51                       | 2833.11                                | 2558.81                                 | 2688.24                                       | -18.18                               | -4.81          | -21.10                                                           |
| 2. आईओसीएल, बोंगाईगांव            | 250.84                      | 278.88                         | 208.09                     | 258.21                       | 1222.51                                | 1260.72                                 | 907.98                                        | 34.02                                | 38.85          | 11.18                                                            |
| 3. आईओसीएल, डिग्बोई               | 66.95                       | 66.27                          | 65.28                      | 67.08                        | 291.81                                 | 275.53                                  | 320.95                                        | 1.51                                 | -14.15         | -1.00                                                            |
| 4. आईओसीएल, गुजरात                | 1202.83                     | 576.91                         | 1260.84                    | 764.95                       | 4824.67                                | 4165.14                                 | 6456.77                                       | -54.24                               | -35.49         | -52.04                                                           |
| 5. आईओसीएल, गुवाहाटी              | 116.8                       | 128                            | 112.85                     | 126.92                       | 556.25                                 | 596.71                                  | 578.94                                        | 13.43                                | 3.07           | 9.59                                                             |
| 6. आईओसीएल, हल्दिया               | 508.28                      | 679.35                         | 285.74                     | 714.16                       | 3361.24                                | 3488.28                                 | 2895.67                                       | 137.75                               | 20.47          | 33.66                                                            |
| 7. आईओसीएल, मथुरा                 | 666.45                      | 743.97                         | 569.63                     | 814.29                       | 3943.47                                | 4084.11                                 | 3784.1                                        | 30.60                                | 7.93           | 11.63                                                            |
| 8. आईओसीएल, पानीपत                | 1280.69                     | 1313.52                        | 1153.02                    | 1351.69                      | 6577.05                                | 6676.1                                  | 6412.29                                       | 13.92                                | 4.11           | 2.56                                                             |
| 9. आईओसीएल, पारादीप               | 1232.12                     | 1219.22                        | 1064.25                    | 1220.73                      | 6075.09                                | 6249.06                                 | 4669.03                                       | 14.56                                | 33.84          | -1.05                                                            |
| <b>योग आईओसीएल</b>                | <b>5883.81</b>              | <b>5447.05</b>                 | <b>5258.63</b>             | <b>5856.54</b>               | <b>29685.2</b>                         | <b>29354.48</b>                         | <b>28713.98</b>                               | <b>3.58</b>                          | <b>2.23</b>    | <b>-7.42</b>                                                     |
| 1. बीपीसीएल, बीना                 | 320.3                       | 206.49                         | 504.25                     | 623.39                       | 2721.7                                 | 2631.52                                 | 2863.96                                       | -59.05                               | -8.12          | -35.53                                                           |
| 2. बीपीसीएल, कोव्वि               | 1413.8                      | 1484.03                        | 1433.51                    | 1438.01                      | 7066.8                                 | 7135.32                                 | 7001.32                                       | 3.52                                 | 1.91           | 4.97                                                             |
| 3. बीपीसीएल, मुंबई                | 1296.8                      | 1339.32                        | 1324.14                    | 1348.88                      | 6198.8                                 | 6452.1                                  | 6262.92                                       | 1.15                                 | 3.02           | 3.28                                                             |
| <b>योग बीपीसीएल</b>               | <b>3030.9</b>               | <b>3029.84</b>                 | <b>3261.9</b>              | <b>3410.28</b>               | <b>15987.3</b>                         | <b>16218.94</b>                         | <b>16128.2</b>                                | <b>-7.11</b>                         | <b>0.56</b>    | <b>-0.04</b>                                                     |
| 1. एचपीसीएल, मुंबई                | 767.8                       | 847.81                         | 717.01                     | 794.42                       | 3825.77                                | 4018.24                                 | 3549.54                                       | 18.24                                | 13.20          | 10.42                                                            |
| 2. एचपीसीएल, विशाख                | 1172.55                     | 1269.86                        | 1201.68                    | 1252.17                      | 5717.39                                | 6261.25                                 | 5745.51                                       | 5.67                                 | 8.98           | 8.30                                                             |
| <b>योग एचपीसीएल</b>               | <b>1940.36</b>              | <b>2117.67</b>                 | <b>1918.69</b>             | <b>2046.59</b>               | <b>9543.16</b>                         | <b>10279.49</b>                         | <b>9295.04</b>                                | <b>10.37</b>                         | <b>10.59</b>   | <b>9.14</b>                                                      |
| 1. सीपीसीएल, मनाली                | 608.9                       | 1013.53                        | 637.75                     | 1016.26                      | 4323.3                                 | 4883.44                                 | 4212.17                                       | 58.92                                | 15.94          | 66.45                                                            |
| <b>योग सीपीसीएल</b>               | <b>608.9</b>                | <b>1013.53</b>                 | <b>637.75</b>              | <b>1016.26</b>               | <b>4323.3</b>                          | <b>4883.44</b>                          | <b>4212.17</b>                                | <b>58.92</b>                         | <b>15.94</b>   | <b>66.45</b>                                                     |
| 1. एनआरएल, नुमालीगढ़              | 240.32                      | 251.64                         | 222.18                     | 264.80                       | 1197.77                                | 1298.22                                 | 1192.74                                       | 13.26                                | 8.84           | 4.71                                                             |
| <b>योग एनआरएल</b>                 | <b>240.32</b>               | <b>251.64</b>                  | <b>222.18</b>              | <b>264.80</b>                | <b>1197.77</b>                         | <b>1298.22</b>                          | <b>1192.74</b>                                | <b>13.26</b>                         | <b>8.84</b>    | <b>4.71</b>                                                      |
| 1. एमआरपीएल, मंगलौर               | 1353.6                      | 1362.32                        | 1355.99                    | 1329.33                      | 6006.7                                 | 5808.34                                 | 6643.57                                       | 0.47                                 | -12.57         | 0.64                                                             |
| <b>योग एमआरपीएल</b>               | <b>1353.6</b>               | <b>1362.32</b>                 | <b>1355.99</b>             | <b>1329.33</b>               | <b>6006.7</b>                          | <b>5808.34</b>                          | <b>6643.57</b>                                | <b>0.47</b>                          | <b>-12.57</b>  | <b>0.64</b>                                                      |
| 1. ओएनजीसी, तातीपाका              | 5.5                         | 6.48                           | 5.51                       | 6.12                         | 24.7                                   | 29.74                                   | 26.5                                          | 17.67                                | 12.20          | 17.87                                                            |
| <b>योग ओएनजीसी</b>                | <b>5.5</b>                  | <b>6.48</b>                    | <b>5.51</b>                | <b>6.12</b>                  | <b>24.7</b>                            | <b>29.74</b>                            | <b>26.5</b>                                   | <b>17.67</b>                         | <b>12.20</b>   | <b>17.87</b>                                                     |
| <b>ख. निजी व संयुक्त उद्यम</b>    | <b>9758.05</b>              | <b>9827.32</b>                 | <b>9747.65</b>             | <b>9779.57</b>               | <b>49382.54</b>                        | <b>48112.51</b>                         | <b>49385.62</b>                               | <b>0.82</b>                          | <b>-2.58</b>   | <b>0.71</b>                                                      |
| 1. एचएमईएल, भद्रिडा               | 976.63                      | 1041.58                        | 976.63                     | 768.59                       | 5298.96                                | 4869.32                                 | 5298.97                                       | 6.65                                 | -8.11          | 6.65                                                             |
| <b>योग एचएमईएल</b>                | <b>976.63</b>               | <b>1041.58</b>                 | <b>976.63</b>              | <b>768.59</b>                | <b>5298.96</b>                         | <b>4869.32</b>                          | <b>5298.97</b>                                | <b>6.65</b>                          | <b>-8.11</b>   | <b>6.65</b>                                                      |
| 2. आरआईएल, जामनगर                 | 3037.66                     | 3116.36                        | 3037.66                    | 3157.41                      | 15472.74                               | 14402.8                                 | 15472.74                                      | 2.59                                 | -6.92          | 2.59                                                             |
| 3. आरआईएल, एसईजेड                 | 4116.8                      | 4244.01                        | 4116.8                     | 4233.24                      | 20497.4                                | 20792.85                                | 20497.4                                       | 3.09                                 | 1.44           | 3.09                                                             |

|                                                   |          |          |          |          |           |           |           |        |        |        |
|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| योग आरआईएल                                        | 7154.46  | 7360.36  | 7154.46  | 7390.65  | 35970.14  | 35195.64  | 35970.14  | 2.88   | -2.15  | 2.88   |
| 4. एनईएल, बादीनार                                 | 1626.96  | 1425.37  | 1616.56  | 1620.32  | 8113.44   | 8047.55   | 8116.52   | -11.83 | -0.85  | -12.39 |
| योग एनईएल                                         | 1626.96  | 1425.37  | 1616.56  | 1620.32  | 8113.44   | 8047.55   | 8116.52   | -11.83 | -0.85  | -12.39 |
| पेट्रोलियम उत्पादों का कुल रिफाइनरी उत्पादन (क+ख) | 22821.44 | 23055.84 | 22408.29 | 23709.48 | 116150.66 | 115985.15 | 115597.83 | 2.89   | 0.34   | 1.03   |
| ओएनजीसी(उरण+हजीरा+अंकलेश्वर+गेल                   | 146.84   | 234.14   | 196.76   | 208.88   | 713.12    | 1061.2    | 1033.05   | 19.00  | 2.73   | 59.46  |
|                                                   | 52.74    | 73.86    | 79.43    | 75.51    | 226.29    | 348       | 384.48    | -7.01  | -9.49  | 40.03  |
| ओआईएल (दुलियाजान)                                 | 2.8      | 2.93     | 2.55     | 2.92     | 9.6       | 11.76     | 13.6      | 14.80  | -13.53 | 4.71   |
| ग. पेट्रोलियम उत्पादों का कुल फ्रैशनर्स उत्पादन   | 202.38   | 310.93   | 278.75   | 287.30   | 949.02    | 1420.96   | 1431.13   | 11.55  | -0.71  | 53.64  |
| समग्र योग (क+ख+ग)                                 | 23023.82 | 23366.78 | 22687.04 | 23996.78 | 117099.68 | 117406.11 | 117028.96 | 3.00   | 0.32   | 1.49   |

नोट: आंकड़ों को पूर्णांकित किए जाने के कारण योग का मिलान नहीं हो सकता है।

\*:अनंतिम .\*\*संशोधित

कमी के कारणों को नोट में दर्शाया गया है †: मौजूदा कॉन्फिगरेशन के साथ आवश्यक उत्पाद विनिर्देशों को पूरकरने की सीमा के चलते सीपीसीएल और सीबीआर रिफाइनरी बंद है।

स्रोत: तेल कंपनियां

\*\*\*\*\*